

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12—जुलाई 18, 2014 (आषाढ़ 21, 1936)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12—JULY 18, 2014 (ASADHA 21, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500 052, दिनांक 25 जून 2014

सं. 15011/11/2014-स्था.--गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21015/1/2014. भा.पु.से. IV दिनांक 10 जून, 2014 के अनुसरण में दिनांक 17 जून, 2014 के पूर्वाह्न से श्री एस. प्रवीण कुमार, भा.पु.से. (उड़ीसा-2002) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर पे-बैंड-3 रुपए 15,600--39,100/- सहित ग्रेड-पे रुपए 7,600/- पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है।

अरूणा बहुगुणा
निदेशक

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 30 जून 2014

सं. 5/1/2014.सी.पी.आई.--मई, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 2 अंक बढ़ कर 244 (दो सौ चवालीस) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी

निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 20 जून 2014

सं. पीडी/6(1)/2014-भर्ती-III/2014/7086—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री बिजेंद्र कुमार शर्मा, सहायक सुरक्षा अधिकारी(ए), ए.एम.डी., जयपुर को दिनांक 23.05.2014 (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भापअ केंद्र, विशाखापट्टनम में सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.

सहायक कार्मिक अधिकारी

दिनांक 23 जून 2014

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड.II)/2014/7197—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री पी. राजीव, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 02.06.2014 (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में नीजि सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.

सहायक कार्मिक अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 24 जून 2014

सं. पीडी/7(6)/2014-भर्ती-IV/एसओ(सी)/ईटीजी/7256—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'एसबी' पे बैंड पीबी-2 रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'सी' के पद पर पे बैंड पीबी-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2013 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	2
1	श्री कारुपर्थी चंद्र शेखरा सुर्य प्रकासाराव
2	श्री मजीश कुमार ए एम
3	श्री शैलेश सुधाकर देवळेकर
4	श्री कमल प्रसाद चौधरी
5	श्रीमती अल्पा यमीश शाह
6	श्री सुरेश मारुती चोपडे
7	कुमारी भारती अग्रवाल
8	श्री ओम प्रकाश वर्मा
9	श्री कटला पुरुषोत्तम
10	श्री टी पांडुरंगा राव

1	2
11	श्री एम रामसुब्रमणियन
12	श्री एस मोहन कुमार
13	श्री एम वी आर नरसैय्या
14	श्री नितीन ऑगस्टीन भोसले
15	श्रीमती सुशीला शीवकुमार
16	श्रीमती शालिनी तिवारी
17	श्री जुगराज मालव
18	श्री प्रसुन माइति
19	कुमारी मैथिलि एम तोरस्कर
20	श्री पी किरण कुमार

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/7(6)/2014-भर्ती-IV/एसओ(सी)/ईटीजी/7262—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'सी' के पद पर पे बॅन्ड पीबी-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2013 के पूर्वान्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
1	श्री श्रीकान्त साहु	एसए/डी
2	श्री अखिल कुमार दुबे	एसए/डी
3	डॉ सुनिता शशिकांत गमरे	एसए/ई
4	श्री ग्यडली त्रिलोचन	एसए/डी
5	श्री अमेय पांडुरंग वडवळे	एसए/डी
6	श्री पाल मनोजकुमार मानिकचंद्र	एसए/डी
7	श्रीमती जिशा स्टाइलमोन पिल्लै	एसए/डी
8	श्री नवीन कुमार	एसए/डी
9	श्री जितेन्द्र सिंह	टेक्न/एफ
10	श्री मो. आरजू अन्सारी	एसए/सी
11	श्री जितेन्द्र शीव बहादूर सिंह	एसए/डी
12	श्री प्रदीप कुमार	एसए/डी
13	श्री विनोद कुमार वर्मा	टीओ/बी
14	श्रीमती चारु श्रीवास्तव	एसए/डी
15	श्री जलज वाष्णीय	एसए/डी
16	श्री मुथुकृष्णन ए	एसए/सी
17	श्री अमोल मधुकर म्हात्रे	एसए/डी

1	2	3
18	श्री भक्तिविनायगम ए	एसए/डी
19	श्री गोपाल प्रसाद वर्मा	एसए/ई
20	श्री तेजराम मीणा	टीओ/बी
21	श्रीमती प्रिया विजय गिरप	टीओ/बी
22	श्री नीरज कुमार	एसए/डी
23	श्री दिलीप कुमार	टीओ/बी
24	श्री श्याम कुमार सिंह	टीओ/बी
25	श्री कामले अजित रविन्द्र	एसए/डी

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 9 जून 2014

सं. 6(1151)/89-प्रशा./7167—अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्रीमती मनीषा एस. वेल्हाल, वैयक्तिक सहायक (पीबी-2 : रु 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु 4,600/- (एमएसीपी)), पऊवि, मुंबई को दिनांक 21 मार्च 2014 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में उसी विभाग में निजी सचिव (पीबी-2 : रु 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु 4,800/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती मनीषा एस. वेल्हाल दिनांक 21 मार्च 2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
अवर सचिव

दिनांक 10 जून 2014

सं. 6(2662)/2014-प्रशा./7233—राष्ट्रपति, नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड, मुंबई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-3: रु 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु 7,600/-) श्री के. पद्मनाभन को दिनांक 19 मई 2014 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में दिनांक 30.10.2016 तक अथवा भावी आदेश होने तक, उनमें से जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नाभिकीय नियंत्रण एवं योजना स्कंध, पऊवि, मुंबई में उप विधि सलाहकार (पीबी-3 : रु 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु 7,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
अवर सचिव

कम्पनी मामले मन्त्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नैटरान इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जून 2014

सं. 560(3)/56838/4740--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त पर मैसर्स नैटरान इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

प्रेमलाल भंजुराम मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2014

सं. कर/दिल्ली/560(5)/एफटीई-2011/4776--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	U93000DL2009PTC197406	ए स्टार सिक्वोरटी एण्ड एच आर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	U72900DL2002PTC114373	आस्था वेब इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	U70101HR2013PTC049057	एडेयेनिका रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U74899DL1991PTC043116	एडिअन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U70100DL2007PTC161582	एडवन्चर प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
6	U51109DL2006PTC151716	अकसतिया रिट्रल प्राइवेट लिमिटेड
7	U65993DL2006PTC144534	एलेजरा इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
8	U63000DL2011PTC218862	एलाईन्स ट्रान्स लाजिक प्राइवेट लिमिटेड
9	U45201DL1997PTC087395	एल्युमेट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
10	U51909DL2008PTC185732	एएमए रिटेल्लस प्राइवेट लिमिटेड
11	U55101DL2010PTC210906	अमत्र हास्पिटेलटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12	U74140DL2007PLC168849	एमेजर टेक्नो-कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड
13	U74899DL1990PTC038801	एमबिएन्स एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड
14	U70109DL2010PTC205922	अमबुश रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U85100DL2011PTC217678	एएमडी मेडएक्सपर्ट साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U51109DL2008PTC174175	अंचल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U65100DL2013PTC257126	एपलाइट फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U74999DL2009PTC188630	एरीस्टो पावर टूल्स एण्ड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U92190DL2011PTC222175	आर्ट आफ लाइफ सेलीब्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U74140DL2007PTC163553	अर्थशास्त्र कनसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	U31908DL2010PTC198064	आर्टलेज लाईटिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
22	U61100DL2005PTC133332	आर्यन शिप चार्टरिंग एण्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	U32109DL2005PTC137181	आर्यश इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U74140DL2011PTC213388	आशा मैनेजमेन्ट कनसलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U29130DL2011PTC226488	एस्टर प्रीशिसन कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U17291HR2005PTC035969	एटीएम एमब्रायडरी प्राइवेट लिमिटेड
27	U29299HR2005PTC035968	एटीएम होलोग्राम प्राइवेट लिमिटेड
28	U51909DL2012PTC235686	अटूट रिटेल साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74899DL1983PTC016249	अटालिका चिट फण्ड एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U85120DL2011PTC225086	ओम एड मेड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
31	U45201DL2006PTC147900	औरो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U80900DL2012PTC238191	अविट्रैन्स सत्रिसेज प्राइवेट लिमिटेड
33	U24100DL2010PTC199669	सवाईयू फ्लोरा नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U74899DL1973PTC006920	बी.एम. एसोसिएट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड
35	U45200HR2008PTC038187	बाबा मोहन राम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
36	U45201DL1996PTC082112	बगाइ कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
37	U17120HR2008PTC038230	बजरंग टेक्सोफैब प्राइवेट लिमिटेड
38	U74899DL1995PLC068215	बनकैपिटल इण्डिया लिमिटेड
39	U74900DL2012PTC230968	बास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
40	U45200DL2008PTC176367	बेलजिक्व डेवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
41	U45201DL2006PTC147896	बेलवेड्जे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U20299DL2009PTC194871	बियान्ड बाडर्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड
43	U74210DL2007PTC161100	बिगबास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
44	U80302DL2011PTC229404	बिनोकस हेल्थकेयर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
45	U72300DL2008PTC178347	बिसन टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
46	U74899DL1992PTC050487	बीएलएच पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U45201DL2006PTC145555	ब्लूम सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U74899DL1988PTC031884	ब्ल्यू बर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
49	U70102DL2011PTC228001	ब्ल्यू हेवन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U45400DL2010PTC207711	ब्रह्म स्टोन क्रशिंग प्राइवेट लिमिटेड
51	U52300DL2011PTC213966	ब्रेन रिवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
52	U22100DL2012PTC242921	ब्रान्ड क्राफ्टर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
53	U22219DL2006PTC151609	सी2के ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U80301DL2012PTC232395	कैंडल ट्रेनिंग इन्सीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
55	U74994DL2008PTC178354	चिराग होम फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U29100DL2010PTC197690	कोल्ट क्लाइमेट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
57	U74899DL1992PTC050274	कनैक्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
58	U74999DL2009PTC192001	कोट्टयार्ड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
59	U70109DL2006PTC159062	क्रासिंग्स बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड
60	U70109DL2006PTC152428	क्रासिंग्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड
61	U70109DL2006PTC151076	क्रासिंग्स कारपोरट पार्क प्राइवेट लिमिटेड
62	U70109DL2006PTC151075	क्रासिंग्स ग्रीन्स प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
63	U70109DL2006PTC152427	क्रासिंग्स होम साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U70109DL2006PTC151494	क्रासिंग्स रिअल्टी प्राइवेट लिमिटेड
65	U70109DL2006PTC151671	क्रासिंग्स रेसीडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
66	U70109DL2006PTC151495	क्रासिंग्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U70109DL2006PTC151257	क्रासिंग्स टाऊनशिप प्राइवेट लिमिटेड
68	U74140DL1996PTC082267	क्राऊन एजेन्ट्स सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
69	U34102DL2013PTC255411	दीप ब्रदर्स आटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U63040DL1999PTC100928	दीप हार्डट टूवल्स प्रा0 लि0 प्राइवेट लिमिटेड
71	U15410DL2012PTC245116	देवादीदेव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U70109DL2012PTC244216	धनसम्रद्धि इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U70109DL2012PTC245269	धनसम्रद्धि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
74	U45200DL2008PTC174829	धर्मपाल विमलरानी डेवपर्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U70101HR2013PTC049087	धूमवर्ण रिअल स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U51909DL2003PTC123406	डीआईजे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U45200DL2006PTC156491	दिशानाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U72900DL2005PTC138674	डीके आईटी जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड
79	U45400DL2007PTC162203	डीएलटी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
80	U74900DL2013PTC252985	डीएन स्वसमेद प्राइवेट लिमिटेड
81	U67120DL2000PTC107433	डाट काम होलडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U18101DL2008PTC181444	डबल ईएमएम गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U51909DL2012PTC246300	ड्रीमर्स डिलाइट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
84	U70100DL2010PTC205954	ड्रोव रिअल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U70102HR2012PTC045049	डीवीआर रिअलकान प्राइवेट लिमिटेड
86	U70109HR2012PTC045066	डीवीआर रिअल्टी प्राइवेट लिमिटेड
87	U70109DL2006PTC151230	डायनमिक टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U74999DL2000PTC105539	ई एम टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
89	U63040DL2008PTC178928	ईको एडवेन्चर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
90	U55101DL2008PTC182618	ईको एडवेन्चर्स रिजार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U72900DL2008PTC178097	एडेन साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
92	U70102DL2010PTC209348	ईआईआर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U17200DL2010PTC197903	एलेगन्टविला फर्निशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U18101DL2006PTC149502	एलीजेन्ट गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U65100DL2013PTC252025	एनटरेज फायनेन्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
96	U74140DL2010PTC210872	स्पेस कारपोरेट आर्ट इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U51226DL2008PTC183641	फारगेट मिल्क प्राइवेट लिमिटेड
98	U51900DL2009PTC190151	फैशन क्राफ्ट्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
99	U64120DL2002PTC113954	फास्ट मेल कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
100	U36911DL2005PTC139335	फेमिना ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड
101	U72900DL2012PTC229727	फ्लैश गेम्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U51909HR2010PTC041453	फ्लैक्शाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
103	U73100DL2011PTC217109	फारचुन रिसर्च रिपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
104	U72900DL2011PTC217639	फास्टर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
105	U74899DL1990PTC041901	फर्नटियर कार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
106	U51909DL2009PTC189870	फ्युचरविजन ट्रैडनेट प्राइवेट लिमिटेड
107	U70101DL2010PTC210458	गंगाधर बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड
108	U65921DL1997PTC086297	गारडेन प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
109	U70101DL2012PTC232431	गावो ग्लोबल रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
110	U74899DL1987PTC028622	जी डी एजेन्सीज प्राइवेट लि0 प्राइवेट लिमिटेड
111	U40100DL2007PTC170082	जेनेस्ट एनजी कनवरजन प्राइवेट लिमिटेड
112	U74900HR2009FTC039532	जियोस्पातिएल कन्सलटेन्सी सत्रिसेज प्राइवेट लिमिटेड
113	U74140DL2008PTC183229	जीआई सी ए टेक्नीकल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U52393DL1999PTC100717	गलित्रिएतती क्रिएशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
115	U51109HR2008PTC037529	गुड मार्निंग इण्डिया बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U70100DL2010PTC210411	गोपेश इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U15200DL2010PTC208359	ग्रेटवैल्यू फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
118	U60200DL2011PTC216419	ग्रेटवैल्यू लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U40104DL2009PTC197042	ग्रेटवैल्यू पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U45201DL2006PTC146713	ग्रोफास्ट प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
121	U17299DL2007PTC160494	एच एन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
122	U45201DL2001PTC109232	हर्षदीप प्रामोर्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U85190DL2012PTC245347	हेड एण्ड स्पाइन पेन मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
124	U29253DL2009PTC188178	हीविट राबिन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
125	U22212DL2005PTC143274	हिल्टन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U11100DL2009PTC197495	एचएसआर प्राइम इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
127	U72200DL2004PTC128532	आईबीएसइण्डिया कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
128	U92419DL2010PTC200880	इम्पैक्ट स्पोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
129	U74900DL2008PTC184053	इमपैक्ट वैल्यू स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U45400DL2007PTC167003	इम्प्रेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
131	U52100DL2009PTC190020	इनक्रिडिबल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U15494DL2012PTC238938	इण्डिका न्यूट्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
133	U70101DL2012PTC244190	इण्डिका रिअलटेक प्राइवेट लिमिटेड
134	U74140DL2008PTC175061	इनफार्मेटिक्स मीडिया कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	U72900DL2011PTC225402	इनोवर कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
136	U74120DL2007PTC167603	इन्टरनेशनल रेन्टल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
137	U74140DL2013PTC253064	इनवाईटी इवेन्ट प्लानर प्राइवेट लिमिटेड
138	U85110DL2006PTC147380	जन हितेषी हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
139	U74991DL2006PTC148510	जनस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
140	U21013DL2001PLC110633	जैसमीन पेपर रिसोर्स लिमिटेड
141	U45200DL2012PTC232532	के के हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड
142	U51397DL2008PTC180739	कामधेनु आर्युवेद प्राइवेट लिमिटेड
143	U72900DL2002PTC118210	कान्ता इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
144	U24119DL2004PTC131240	खुशी केमटैक्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
145	U18101DL2008PTC176053	किंग्स फैब्रिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
146	U65992HR1991PTC031297	कोनिक्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U45400DL2008PTC185430	केएसपी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U74899DL1986PTC024430	कुलवन्त इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लि0 प्राइवेट लिमिटेड
149	U74899DL1995PTC068533	लेकव्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
150	U45400DL2007PTC168603	लक्ष्मी इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
151	U74140DL2003PTC119828	लेजेन्ड्री लीगल एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
152	U51909DL1992PTC050061	लिक्वी निर्यात प्राइवेट लिमिटेड
153	U51909DL2007PTC161208	लाइफस्टाइल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
154	U45200DL2011PTC221095	ल्युसयुलेन्ट बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड
155	U74899DL1994PLC063882	एम जी एग्रो प्रोसेसर्स लिमिटेड
156	U93000DL2012PTC242159	एम के आर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
157	U51909DL2013PTC253525	मैजीकेयर साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
158	U74899DL1991PTC048716	महावीरा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
159	U74140DL2008PTC180402	मैनीग्ल्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	U70109DL2012PTC237632	मैप्सकॉन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
161	U70100DL2010PTC205438	माराकस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
162	U92199DL2003PTC119480	मार्स इवेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
163	U74120DL2007PTC162417	मैक्स सर्टिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U72900DL2007PTC164230	एमडीके टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
165	U70101DL2012PTC240545	मेगाट्रीम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
166	U70101DL2011PTC213310	माइलस्टोन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
167	U74140DL2010PTC209867	माइन्ड एवेन्युस मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
168	U72900DL2011PTC227372	मून एप्स.डीबीए टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
169	U74899DL1994PTC061969	एमटीएच इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
170	U70100DL2013PTC256459	मुरलीधर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
171	U70100DL2013PTC256014	मुरलीधर इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
172	U70100DL2013PTC255907	मुरलीधर रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
173	U51909DL2005PTC134266	एन एस वी आर इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
174	U01400DL2010PTC205315	नन्दल डेयरी एण्ड रुरल इन्ट्रीग्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
175	U31901DL2006PTC157087	नारंग प्रीशिसन कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U55101DL2006PTC148828	नैवीगेट रेस्टोरेन्ट ब्रान्डस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
177	U72300DL2012PTC231828	न्युवर्ड टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
178	U74999HR2011PTC043258	न्यू इरा ल्युब्रिकेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
179	U74920DL2010PTC210650	न्यूजेन सिक्वोरटी एण्ड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
180	U24233DL2004PTC129784	नोएडा आर्युवेद प्राइवेट लिमिटेड
181	U74899DL1996PLC075115	न्यूवेव फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
182	U18101DL2008PTC179899	ओरेंज ट्री एप्परेल प्राइवेट लिमिटेड
183	U65900DL2010PTC208832	आस्टलर फायनेन्सियल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड
184	U51909DL2010PTC197904	पाम इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
185	U72300DL2008PTC172412	परमहंस एक्सपीओ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
186	U55100HR2011PTC042163	पैरोट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
187	U51311HR2002PTC034960	पीबीएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
188	U74899DL1986PTC023376	पर्ल सेरेमिक्स प्राइवेट लि0 प्राइवेट लिमिटेड
189	U40101DL2011PTC214474	पीजीए पावरसन टेक प्राइवेट लिमिटेड
190	U70102DL2009PTC196287	पिहु कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
191	U72200DL2005PTC135917	पिटने बाऊस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
192	U72200DL2004PTC131743	प्लानेट साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
193	U70200DL2010PTC210536	प्रियभक्त डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U18101DL2011PTC218381	प्रियंका भल्ला एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U74999DL2004PTC128793	पुनीत मोल्डेड प्राइवेट लिमिटेड
196	U45201DL2002PTC116974	पूर्वी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
197	U35122DL2007PTC166117	क्यू-प्लस आटो प्राइवेट लिमिटेड
198	U74120DL2008PTC183680	आर एण्ड आर बिल्डस्टेस प्राइवेट लिमिटेड
199	U72900DL2004PTC127466	आर आई नेतालय साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U70101DL2010PTC199415	आर पी सिंह रिअल स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
201	U70102DL2013PTC260975	रेडीएन्स कारपोरेट हाम्ज प्राइवेट लिमिटेड
202	U51311DL2004PTC129783	रजानी गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
203	U74120DL2008PTC175203	रामा कालपैक प्राइवेट लिमिटेड
204	U45200DL2007PTC161024	रंगोली टारुन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
205	U72200HR2011PTC043259	रविरा इन्टरनेट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
206	U52300DL2011PTC215341	आरबीआर सेल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
207	U45400DL2007PTC170110	आरकान इन्जीनियरिंग कान्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
208	U70200DL2012PTC229645	रिमैक्स कन्सोरटियम रिअलटीस प्राइवेट लिमिटेड
209	U74999DL2012PTC232765	आरजीबी रिसोर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
210	U72100DL2013PTC257492	आरएचसी इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
211	U70200HR2013PTC048984	रिशेश्वर बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
212	U45201DL1994PTC058867	आरएनएस प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
213	U70109DL2006PTC152282	रोज बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
214	U62200DL2007PTC167219	रोटोरजेट एअर कन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
215	U74999DL2013PTC261427	आरएसएम एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
216	U51900DL2012PTC244087	रुदरालिट्र ट्रेडक्स प्राइवेट लिमिटेड
217	U70109DL2013PLC249560	साई सनबीम इन्फ्राबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड
218	U70109DL2006PTC151322	सक्षम प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
219	U51909DL2006PTC155899	संजीव इन्डसट्रियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
220	U80904DL2008PTC185356	सपिप्लेंट एज्युकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
221	U74140DL2005PTC139118	सैपरस मेनेजमेंट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
222	U74899DL1980PTC010191	सारदा आर्थल इन्डसट्रीज प्राइवेट लि0 प्राइवेट लिमिटेड
223	U72200DL2007PTC161553	सतकाम नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U92190DL2010PTC203553	स्कैल मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
225	U51909DL2012PTC238385	सैबिर इन्वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
226	U45201DL2006PTC145931	सीनियर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
227	U65993DL2000PTC104313	शकुन कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
228	U72200DL2007FTC171934	शैफिल्ड हावर्थ साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट नालेज सेन्टर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
229	U74910DL2008PTC183625	शेलिकियर मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड
230	U70109DL2006PTC154369	शौर्य डयूरोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
231	U45400DL2008PTC172180	शौर्य रिअलकान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
232	U70109DL2010PTC199254	श्री लालजी इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड
233	U40104DL2010PTC204840	श्री लालजी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
234	U62200DL2007PTC160007	श्वेथा एअर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
235	U92190DL2008PTC178644	सिरदी साई इवेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U51900HR2010PTC040257	स्माट्र स्टेप्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
237	U72200DL2007PTC161095	साफ्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
238	U55101DL1992PTC050405	सोलंग रिजाट्स प्राइवेट लिमिटेड
239	U74899DL1985PTC020161	साऊथ एशिया मार्केटिंग को प्राइवेट लिमिटेड
240	U36101DL2002PTC117061	स्पेसवर्कज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
241	U45402DL2008PTC184061	स्पैलनडिड इन्फ्रारिअल्टी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U92400HR2013PLC049219	एसआरएस सिनेमास एण्ड इन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड
243	U52609HR2013PLC049291	एसआरएस मार्डन रिटेल लिमिटेड
244	U15139HR2013PLC049518	एसआरएस रायल बाइट्स लिमिटेड
245	U74140DL2008PTC177136	एसएसके कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U64202DL2005PTC139998	स्टार ई-सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
247	U25202DL2005PTC136167	स्टिकक्राफ्ट प्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड
248	U93000DL2014PTC263585	स्टोन्ड एपे स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड
249	U70101DL2013PTC262178	सुहानी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
250	U13203DL2006PTC146553	सुमेरु माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
251	U74140DL2010PTC207943	सन आफिस साल्युशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
252	U25206HR1990PTC030927	सूर्या हाइड्रोलिक्स प्रा0 लि0 प्राइवेट लिमिटेड
253	U72300DL2011PTC226621	स्वर इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
254	U52100DL2011PTC215999	एसवाईडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
255	U45101DL2001PTC110234	टी पी गुप्ता कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
256	U74900DL2009PTC196908	तान्या इलैक्ट्रिकल एण्ड सिविल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
257	U32304DL2005PTC138643	तरंग डिजिटल स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड
258	U10200DL2005PTC143938	तारासागर इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
259	U72300DL2007PTC169548	टेक्नो लैटिक साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
260	U51900HR2012PLC044782	टेक्नोफिले कमर्शियल लिमिटेड
261	U72300DL2006PTC156998	टेकविक्टस साफ्टवेयर कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
262	U74899DL1988PTC033526	टेलीनेट्स साफ्टवेयर एण्ड कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
263	U74999DL2012PTC233298	दि प्युपल डेवलपमेन्ट कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
264	U72200DL2010PTC201850	थिंकटैंग साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
265	U29268DL1997PTC085250	टापस्लाट इन्जीनियरिंग कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
266	U93000DL2009FTC189690	ट्रैडको कन्सलटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
267	U80210DL2013PTC247366	ट्रान्स एटलांटिक एज्युकेशनल ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड
268	U36995DL2010PTC200150	ट्रान्स इण्डिया कास्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
269	U72300DL2010PTC200325	ट्रान्स इन्फोसाल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
270	U51101HR2010PTC039906	ट्रिप्लिंगल स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
271	U45200DL2007PTC160876	त्रिदेव प्रोपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
272	U52100DL2007PTC168460	ट्रोसिलेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
273	U74999DL1998PTC093319	यूके इमिग्रेशन कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
274	U35990DL2011PTC212820	यूनीक रालर बीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड
275	U11101DL1999PTC100325	यूनाइटेड ड्रिलिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
276	U74140DL2012PTC240251	यूनिवर्सल रिसर्च माइन प्राइवेट लिमिटेड
277	U17111DL2000PTC108393	यूएनआर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
278	U93000DL2011PTC217310	यूपी ब्रिज इन्जीनियरिंग एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U18101DL1988PTC034258	अप्पल फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
280	U52312DL2012PTC240516	यूवी कलर चेंज कास्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
281	U51909DL2012PTC232916	यूवी कलर चेंज क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
282	U45201DL2006PTC145554	वैभव स्टेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
283	U51433DL2004PTC131241	वकी आर्किटेक्चरल स्पेसिलेटीज प्राइवेट लिमिटेड
284	U72900DL2000PTC103666	वेद प्रकाश साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
285	U32202DL2004PTC128872	वर्सेटाइल्स इलैक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
286	U93000DL2012PTC233109	विधाता एज्युहेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
287	U45200DL2008PTC175735	विमलरानी विजय अग्रवाल प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
288	U45400DL2007PTC171306	विशिष्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
289	U45400DL2011PTC214793	वीएसके डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
290	U72900DL2010PTC198374	वीविन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
291	U72900DL2000PLC107025	वेब गेंज लि0 प्राइवेट लिमिटेड
292	U85110DL2010PTC203000	वैललाजिक हेल्थनेट प्राइवेट लिमिटेड
293	U74999DL2006PTC155361	वैललाजिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
294	U74140DL2011PTC219131	विन विन मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
295	U72300DL2008PTC180075	वियासक इन्फोसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
296	U36101DL1998PTC091842	वुडस्ट्याक रिहाइन प्राइवेट लिमिटेड
297	U51909DL2012PTC241941	डब्ल्यूटीएच इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
298	U51311DL2004PTC129581	वाई बी गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
299	U22211DL2013PTC256348	युलो गेट वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
300	U29220DL2011PTC212761	योगेश मशीनी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
301	U24232DL2009PTC196132	जाइदोम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

रजनीश कुमार सिंह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 26 जून 2014

सं. 560(3)/1298--एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:--

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन संख्या
1	लक्ष्य अवसर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC028077
2	एस कुमार वीजन इण्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028071
3	वागोरस इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2003PTC028074
4	स्काईलैब मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC028057
5	आइडियल कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U22121UP2003PTC028046
6	व्याज शोस एण्ड प्रमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U92141UP2003PTC028048
7	एकुरेट काल्स प्राइवेट लिमिटेड	U80902UP2003PTC028042
8	जैसवाल बुल्डकान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC028037
9	जनकी डेवलपर्स एण्ड कान्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45203UP2003PTC028040
10	एलियांस डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC028041
11	प्रंचवटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028034
12	सेहजास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80101UP2003PTC028031
13	मिनस प्लस जीरो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U62190UP2003PTC028016
14	ए वी आर सविसेज प्राइवेट लिमिटेड	U80903UP2003PTC028017
15	शूज अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड	U19202UP2003PTC028019
16	रेड रोज गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2003PTC028020
17	हैवेनवे सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028006
18	एडवांस मार्केट रिसर्च एण्ड सोशल इन्फार्मेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74130UP2003PTC027996
19	विन्ध्यवासिनी सजिकल प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027860
20	एडवीजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027981
21	एसजीवी मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027983
22	सैम ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2003PTC027978
23	बोनाफाइड नेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP2003PTC027973
24	मंगलम ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50101UP2003PTC027972
25	ओमगुरु आयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15142UP2003PTC027968
26	जी आई फारेन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2003PTC027969
27	के एस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2003PTC027961
28	एकेम सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027964
29	गोल्डेनफ्यूचर सेल्स एण्ड मार्केटिंग कान्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027952
30	बनेधिया प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	U22122UP2003PTC027953
31	लीडिंग इंडिया सेल्स एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027955
32	टूफुड्स मार्केटिंग कान्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027959
33	नेटवे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2003PTC027960
34	रेस्टोरा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U17226UP2003PTC027945
35	गोल्डेन स्काई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027948

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन संख्या
36	लाइफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027943
37	टाइम्बेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027913
38	थिक इन्फोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027919
39	लोटस मेडिकल डिवाइसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2003PTC027906
40	एच आर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC027901
41	हेल्थलाइन फार्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC027897
42	नरेश पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2003PTC027865
43	महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड	U80302UP2003PTC027849
44	एस के रियलस्टेट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70109UP2003PTC027853
45	हेलोस इन्फोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2003PTC027833
46	एवन बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2003PTC027811
47	एएआई इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC027810
48	रिलायबेल इंश्योरेंस केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2003PTC027792
49	ब्राइट फ्यूचर सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC027791

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 27 जून 2014

सं. 560(5)/1312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं:--

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन संख्या
1	करन इण्टरब्राइसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC030685
2	फर्स्ट असेम्बल एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2005PTC030669
3	वीटेल मार्केटिंग एण्ड कन्सुल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U52603UP2005PTC030658
4	अगाज बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24232UR2005PTC030631
5	डायनेमिक डायरेक्टलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2005PTC030599
6	द्वारिकेश सिक्कूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2005PTC030537
7	आस्था सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2005PTC030427
8	लार्ड विष्णु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC030506
9	रितेश सारटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15311UP2005PTC030509
10	सर्वोदय पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U22121UP2005PTC030510
11	विटालेज हॉब्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2005PTC030501
12	सपोर्ट मार्केटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP2005PTC030491
13	आदित्य लिक्विड प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2005PTC030456
14	राइटवाश डोमेस्टिक क्लाय क्लीनिंग एण्ड ड्राईक्लीनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U93010UP2005PTC030459
15	नियोपैकेट्स कन्सुल्टेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2005PTC030450
16	वीजन वन नेटवर्क इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2005PTC030454

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन संख्या
17	ग्रीन रोडवेज ट्रांसपोर्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U60232UP2005PTC030235
18	मिशन फार्मिडिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U60231UP2005PTC030213
29	परसमणि सीडस प्राइवेट लिमिटेड	U01122UP2005PTC030173
20	गोरक्ष फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15440UP2005PTC030151
21	गनन्धीराजा कान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC030020
22	एल सी ए एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	U01112UP2005PTC029657
23	विकल्प कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2005PTC029532
24	विश्वामित्र कान्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC029476
25	आकाश कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2005PTC029477
26	बेलोसेल मार्केटिंग एण्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC029349
27	इन्नो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U73100UP2004PTC029119
28	सूरी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029112
29	वी श्री एक्जिम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2004PTC028920

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 27 जून 2014

सं०: 560(3)/1313&&एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) माह अप्रैल के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

1	नौगरिया एग्रो फारेस्ट्री प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U01122UP2004PTC028903
2	मुगल प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड	U26952UP2004PTC028892
3	श्री प्रगया बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028893
4	ग्रीन विच एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U19123UP2004PTC028894
5	आदिनाथ हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC028891
6	पल इण्डिया इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028890
7	लाइफ वीजन सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028882
8	सत्यम शिवम सुन्दरम फेब्रीकेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U26964UP2004PTC028869
9	ज्वीटर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028875
10	4 डिमेंशन ट्रवेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028863
11	पुष्पलता आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U63022UP2004PTC028868
12	सिसौदिया इनवर्ट शुगर प्राइवेट लिमिटेड	U15421UP2004PTC028854
13	रिशि पूजा इनरजी टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U29119UP2004PTC028846
14	पारशिव फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028843

15	जीमिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028838
16	कलांचल फिल्म एण्ड म्यूजिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U92114UP2004PTC028823
17	डी आर पी एस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028820
18	ड्रीमवर्ड ई सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028821
19	कोरल मैकरेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028810
20	डदय मार्कफिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028812
21	ग्रीन हाउस बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028813
22	सुहिमी कन्सलटेंसेस एण्ड सलुशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74140UP2004PTC028809
23	एन एल जी केमिकल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51434UP2004PTC028796
24	डान सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028792
25	सुपर डाटा प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U80221UP2004PTC028795
26	स्वर्निम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028788
27	अल मिजान फ़ोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15139UP2004PTC028791
28	श्यामा लाइफलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028782
29	इमेजिनेशन एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2004PTC028777
30	एस एस पेट्रोनेट आयल्स एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड	U51410UP2004PTC028753
31	डी बी एस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028747
32	नवग्रह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028748
33	प्राैविकल मरकन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028733
34	विशम्भर इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U10102UP2004PTC028728
35	श्री शोभाराम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15135UP2004PTC028719
36	इन्दू इन्फोकाम प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028584
37	सप्तरिशी मरकन्टाइल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028714
38	सुस्ती इश्योरेंस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U66030UP2004PTC028716
39	न्यू सम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028718
40	नीलकमल हाईटेक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028709
41	आर्यन्स मरकन्टाइल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028704
42	मिक्रो इन्फोसिस कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80302UP2004PTC028701
43	गनपति इण्टरटेंमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92141UP2004PTC028682
44	स्वनिशा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028680
45	रेक्समेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028678
46	कुनिका मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP2004PTC028666
47	कृपा शंकर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51432UP2004PTC028639
48	सुक्रति फिनकाम प्राइवेट लिमिटेड	U65922UP2004PTC028641
49	आशना सेरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U26914UP2004PTC028644
50	एराइजिंग फूचर इन सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028636
51	डायमण्डप्रिज्म एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U02001UP2004PTC028637

52	कैमरा आई फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U92112UP2004PTC028631
53	आलोक हाउसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028632
54	शांती एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2004PTC028620
55	सेवेन स्टार कान्सेप्टस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028571
56	आसरा एसोसियेटेड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29308UP2004PTC028573
57	अम्रत हरबल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2004PTC028578
58	आइडियल सरकुलेशन वे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028534
59	रिब्रु ब्रुश कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U24229UP2004PTC028536
60	गति पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2004PTC028541
61	भागो सिक्योरिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028517
62	मौयास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028521
63	रेसोमेट्रिक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74130UP2004PTC028522
64	आशू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028526
65	विजेता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028512
66	सेल्संस चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP2004PTC028514
67	श्री हरदोई बालाजी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U10101UP2004PTC028504
68	आशीष वेद नमन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2004PTC028500
69	सत्यम शिवम सुन्दरम सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028501
70	वैष्णो सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028498
71	गोल्डेनवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028484
72	विजयन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP2004PTC028477
73	अंक्यूस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028460
74	श्रीराम टेक्नो बियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U27108UP2004PTC028434
75	कैरियर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028427
76	अम्बा मल्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028418
77	प्रग्या फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U92111UP2004PTC028419
78	मिरर ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028411
79	प्रिंस कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028400
80	गंगा आक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड	U23201UP2004PTC028396
81	हमारा सम्रघ जीवन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028387
82	डालर स्टीलस प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028384
83	वाष्नेय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028373
84	सुखबासी लाल मिश्री लाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17212UP2004PTC028369
85	उषा इनफोसेल्यूषन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028370
86	स्काईलैब कन्सुल्टिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028346
87	जानकी टेरेस्म इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028347
88	श्री शेरे पंडित कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2004PTC028348

89	घमाका इन्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028349
90	कंसैरटियम प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028339
91	ट्रिसाम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028343
92	आई साइट इण्टरटैमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92113UP2004PTC028334
93	इनफो वेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028330
94	सी डी एस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028320
95	सिचौन सिल्क प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028327
96	जे एम स्टील एण्ड एलायस प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028315
97	रवी पम्प्स एण्ड जेनरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29119UP2004PTC028310
98	सन क्रेडिट सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U65192UP2004PTC028313
99	कानपुर पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U22212UP2004PTC028305
100	एस एम एस प्रोटेक्शन एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028302
101	राजेश मसाला प्राइवेट लिमिटेड	U15495UP2004PTC028300
102	नेचुरल सेल्स कन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028291
103	स्वयं सिद्धि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67200UP2004PTC028283
104	सी डी एस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028275
105	टेलीसिया केम एण्ड फूड्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51229UP2004PTC028265
106	ड्रीम विन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028256
107	आर एस एम हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC028254
108	जे एण्ड जे सिटी क्लब प्राइवेट लिमिटेड	U55201UP2004PTC028246
109	दि इन्वोर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028240
110	जीनियस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028228
111	आई स्पाई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028229
112	धनश्याम मरकन्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028096
113	नार्दन एकेडमी आफ हायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80301UP2004PTC028224
114	ग्लास सी बी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028214
115	इण्टरग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	U62100UP2004PTC028212
116	नबी करीम बिर्ल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028207
117	प्रभू दयाल एण्ड ब्रदर्स बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028203
118	गौरव एण्ड गौरीश एसोसिएट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U19116UP2004PTC028197
119	भवानी रियल्टी एण्ड बिर्ल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028192
120	मधुर इण्डिया डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028184
121	फ्रैण्स एमबीशन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028182
122	कुडोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2003PTC028179
123	फार्मस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2003PTC028169
124	ओरिजिन साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028165
125	बी आर टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25112UP2003PTC028157

126	मास्टरमाइण्ड प्रोटेक्शन गार्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2006PTC031819
127	अरेश एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U51229UP2003PTC028144
128	महादेव पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22122UP2003PTC028145
129	एक्सेल इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC028131
130	के एल टी इण्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2003PTC028133
131	गोल्डेन चांस सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028119
132	इन्स्ता कोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65999UP2003PTC028122
133	नाकुर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74959UP2003PTC028114
134	कैप्स्टोन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028115
135	एन यू ब्राइट सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028110
136	कैटेलिस्ट एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74110UP2003PTC028111
137	गुपानी एगो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U15499UP2003PTC028113
138	अपना खुशाल बाजार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028097
139	देववंशी मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028098
140	दिबोनेयर किड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U95000UP2003PTC028099
141	इण्डिवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC028087
142	ओशेल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31300UP2003PTC028083
143	एस जी आर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52322UP2003PTC028075

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956, तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक: 25 जून, 2014

सं. क.र./प.0बं.0/एसएम/560/2014--कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा के अनुसरण में यह सूचना दी (5) की उप धारा 560 जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गये हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं ।

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U74900WB2010PTC153809	सरल नेटवर्क ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
2	U45400WB2010PTC153885	महुलबान डेवलपर एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	U45400WB2010PTC155390	गजपति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB2010PTC154444	एवरवे ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
5	U52190WB2010PTC155074	स्पाइडर नेटवर्क कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
6	U74900WB2010PTC141040	ब्रिन्दा मार्बल एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	U13203WB2010PTC145206	सोमेनाथ इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
8	U45400WB2010PTC152754	दुलाल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U51909WB2010PTC153811	किंगफिशर डिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड

10	U51224WB2010PTC152804	प्रीति फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	U52322WB2010PTC152986	कुसुम सारी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	U52590WB2010PTC152990	अलका ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
13	U01403WB2010PTC153044	घोष एंड रॉयज कृषि फार्म प्राइवेट लिमिटेड
14	U63040WB2010PLC153219	राइसिंग ट्यूरिज्म लिमिटेड
15	U55101WB2010PTC153285	जे.बी. साच फूड एंड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909WB2010PTC153581	मंगलमूर्ति ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
17	U67190WB2010PLC153628	एम.एस. ग्लोबल मनेजमेंट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
18	U74999WB2010PLC153661	कवाच टेली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
19	U52190WB2010PTC153928	अलास्का डिलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
20	U70109WB2010PLC154923	फोर्ट ग्रीनरिज पावर इन्फ्राकोन लिमिटेड
21	U51909WB2010PTC155688	सियाराम डिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
22	U29253WB2010PLC156237	मैकमेट टाइम विजर इंजीनियरिंग लिमिटेड
23	U52190WB2010PTC154853	शीरवूड इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
24	U15312WB2010PTC155628	बाबा भोलानाथ राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
25	U22130WB2010PLC141617	मंत्रम बिनोदन मीडिया कार्यक्रम लिमिटेड
26	U31504WB2010PTC152186	सास इलेक्ट्रो मैकनिकल इक्वूपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
27	U18100WB2010PTC152221	अक्षरा टेक्सटाईल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
28	U51909WB2010PTC153902	शिवदर्शन कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड
29	U01403WB2010PLC154789	ग्रीन वैली फार्म प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
30	U17121WB2010PTC155796	बोंडिया स्पिनफैब प्राइवेट लिमिटेड
31	U70109WB2010PTC156238	पवन मोदीश डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U27201WB1965PTC026496	ईस्ट इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
33	U70100WB2009PLC140094	स्वर्णटोरी प्रोजेक्ट इन्फ्रा लिमिटेड
34	U51909WB2010PTC141333	सप्तऋषि डिलर प्राइवेट लिमिटेड
35	U52390WB2010PTC152159	एसबीजी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U74900WB2010PTC152872	रोमन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U51909WB2010PTC153024	रिव्यू डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U52100WB2010PTC153058	लाइफ गुर्ड ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
39	U51909WB2010PTC152786	शिवखोरी विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
40	U74900WB2010PTC153081	जमुना स्टील प्राइवेट लिमिटेड
41	U52100WB2010PTC153386	आरमार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड .सी.टी.
42	U25209WB2010PTC153791	चौरसिया पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U70102WB2010PLC153963	रियल लाइफ रियलटी लिमिटेड (इंडिया)

44	U01403WB2010PTC154081	बंगाल इन्वीट्रो वैंचर प्राइवेट लिमिटेड
45	U70200WB2010PLC154207	इनटेरेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
46	U85110WB2010PTC155465	सुराहा हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
47	U51909WB2010PTC154082	एन्नेक्स इंप्लुएंस् मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
48	U74999WB2010PTC153640	जेआरडी विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
49	U74999WB2010PTC153687	अंकुर फाइनेंशियल मनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
50	U92140WB2010PTC153780	स्टुनिंग इवेंट्स एंड इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
51	U01403WB2010PTC153975	समरीद्धि एगो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U51909WB2010PTC154237	यशराज विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
53	U70102WB2010PLC154381	रियल इंडिया देवकोन लिमिटेड
54	U01403WB2010PLC154512	पारसमोनी एगोप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
55	U24233WB2010PTC155377	टीएसआर ईमपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U01403WB2010PLC155425	ब्लूबिल एग्रीविजन इंडिया लिमिटेड
57	U51909WB2010PTC155498	रिवर कॉमडिल प्राइवेट लिमिटेड
58	U70109WB2010PLC155774	सी स्टोन डेवलपर्स लिमिटेड
59	U93000WB2010PTC156036	जी एफ एस सिक्यूरिटीस एंड इस्कोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U85195WB2010PTC156077	सियाराम फार्मासीयूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U28910WB2010PTC156186	मॉडल पृथीशन इंजीन्यरिंग प्राइवेट लिमिटेड
62	U52390WB2010PTC152723	बेस्ट लाइफ केयर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
63	U52100WB2010PTC152376	क्रॉसवे मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
64	U72900WB2010PTC152548	जेएसजे इन्नोवेटिव टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
65	U52100WB2010PTC152660	कोरस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U52322WB2010PTC152989	मेहक गार्मेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
67	U14200WB2010PTC153100	श्री जिन ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U52590WB2010PTC153150	रैनबो डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
69	U45400WB2010PTC153387	मिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
70	U51505WB2010PTC152798	बी पी एनर्जी रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
71	U52322WB2010PTC152987	आयुषी सारी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
72	U18202WB2010PTC152994	दिगंता जुट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
73	U52390WB2010PTC154520	यानर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U51909WB2010PTC154742	वीएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड-
75	U51909WB2010PTC156106	इकॉनमी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
76	U24100WB2010PTC156222	नुफुर हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
77	U13100WB2010PTC156439	फेरॉटेक ओर्स एंड मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड

78	U52590WB2010PTC152984	कशिका सारी इम्पोरीयम प्राइवेट लिमिटेड
79	U40102WB2010PTC155626	सिएना इलेक्ट्रिकलस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
80	U51909WB2010PTC152082	रघुपति डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
81	U52100WB2010PTC152449	कल्याण मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U70109WB2010PTC152569	बस्तु रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
83	U74900WB2010PTC152621	पुरुसत्तम एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
84	U63090WB2010PTC152688	सीट्रांस ओवरसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
85	U74999WB2010PLC152860	बर्धमान जनकल्याण मल्टीलेवल डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
86	U74999WB2010PTC153337	सुपरडील हाउसिंग एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
87	U51909WB2010PTC153368	रुद्रमाला विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
88	U74999WB2010PTC153485	रास ईपेज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-
89	U50102WB2010PTC153536	ब्लैक डायमंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
90	U70102WB2010PTC153644	लक्ष्मी कंकलेव प्राइवेट लिमिटेड
91	U51909WB2010PTC153739	अमृतलक्ष्मी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
92	U51909WB2010PTC153741	मंगलवाणी विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
93	U51909WB2010PTC153901	संयम मर्केडाइज प्राइवेट लिमिटेड
94	U51909WB2010PTC154080	फ्युचर फ्रेंड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
95	U25209WB2010PTC154146	दे एंड सरकार प्लास्टिक मौलिंग एंड सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
96	U01403WB2010PLC154384	मार्स एगोफार्म डेवलपर्स लिमिटेड
97	U52100WB2010PTC154556	अब्सोल्यूट डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
98	U52390WB2010PTC154557	पर्फेक्टचॉइस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
99	U51109WB2010PTC154659	नेबुला ट्रेकॉम प्राइवेट लिमिटेड
100	U45400WB2010PLC154681	पर्ल वैल्ली इन्फ्रानिर्माण लिमिटेड
101	U17291WB2010PTC154725	लोकनाथ पावरलूम प्राइवेट लिमिटेड
102	U74999WB2010PTC155107	रघुपति सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. मारिया कॉन्स्टेन्ज़ हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 5120/817—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. मारिया कॉन्स्टेन्ज़ हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. क्लेफ्रा टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 2992/820—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. क्लेफ्रा टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. स्टेला टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 5034/823—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. स्टेला टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. न्यूलैंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 4937/827—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. न्यूलैंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. सौदामिनी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 1835/830—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. सौदामिनी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. अल्किमिया आयुर्वेदिक योगा हैल्थ थेरेपीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 6048/833—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. अल्किमिया आयुर्वेदिक योगा हैल्थ थेरेपीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. एल्लीस हैन्डीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 6127/836—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. एल्लीस हैन्डीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. वन वर्ल्ड प्रॉजेक्ट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 4156/839—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. वन वर्ल्ड प्रॉजेक्ट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. भ्रमरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी — 403001, दिनांक 06 जून 2014

सं. 6886/842—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. भ्रमरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

श्रीधर पामर्थी
कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में

कटक-753014, दिनांक 24 जून 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/994—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	15-07356	मेसर्स जेपीडिसी प्राइवेट लिमिटेड
02	15-08356	मेसर्स मोनालीसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
03	15-08763	मेसर्स सेट्टीक्स क्वालिसफट् प्राइवेट लिमिटेड
04	15-11808	मेसर्स उत्कल् इनफरमेसन् एनड कम्युनिकेसन् टेक्नोलोजी सर्भिसेस् प्राइवेट लिमिटेड
05	15-12350	मेसर्स युनिभरसाल् युनाइटेड इन्डस्ट्रीज् एनड ट्रेड् कन्सोरटिअम् प्राइवेट लिमिटेड
06	15-12518	मेसर्स अरो माइनिन्ग् एनड एनभिरोनमेन्ट् कन्सल्टीन्ग् प्राइवेट लिमिटेड
07	15-14051	मेसर्स पीएसडी कन्सल्टान्सी प्राइवेट लिमिटेड
08	15-14054	मेसर्स बी के पब्लीकेसन्स् प्राइवेट लिमिटेड
09	15-14055	मेसर्स जीएसएस इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्राइवेट लिमिटेड
10	15-14056	मेसर्स इन्टेल्लो सल्युसन्स् प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
11	15-14057	मेसर्स मार्कड इन्क् सर्भिसेस् प्राइवेट लिमिटेड
12	15-14059	मेसर्स माक्सफीन् इन्फ्रा इन्डिआ लिमिटेड
13	15-14060	मेसर्स आदित्य फुचर सिक्वोर् प्राइवेट लिमिटेड
14	15-14061	मेसर्स पद्मा रेसर्ट्स् प्राइवेट लिमिटेड
15	15-14064	मेसर्स साई राम् रियल्कन् प्राइवेट लिमिटेड
16	15-14065	मेसर्स जेजे रिसोर्स मानेज्मेन्ट सल्युसन् प्राइवेट लिमिटेड
17	15-14066	मेसर्स एसबीजेड् प्रपर्टीज् प्राइवेट लिमिटेड
18	15-14070	मेसर्स फरनास् हाइड्रोपावार् प्राइवेट लिमिटेड
19	15-14074	मेसर्स जय लख्मी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	15-14075	मेसर्स स्वर्नभुमी फुडस् इन्डिआ लिमिटेड
21	15-14076	मेसर्स यु-लाइफ् मल्टीट्रेड् प्राइवेट लिमिटेड
22	15-14079	मेसर्स ग्रीन् लाइफ् इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्राइवेट लिमिटेड
23	15-14083	मेसर्स जाग्रूती सुलोचना मल्टी सर्भिसेस् प्राइवेट लिमिटेड
24	15-14084	मेसर्स सावीत्री सिं मार्केटिन्ग् प्राइवेट लिमिटेड
25	15-14086	मेसर्स अल् राउन्ड् रेसीडेन्सिआल् सर्भिसेस् प्राइवेट लिमिटेड
26	15-14087	मेसर्स लिटील् गार्डन् रीअल्कन् प्राइवेट लिमिटेड
27	15-14088	मेसर्स सुर्य प्रताप् इन्फ्रास्ट्रक्चर् लिमिटेड
28	15-14094	मेसर्स मास् भेन्चर्स् लिमिटेड
29	15-14096	मेसर्स सूर्य निर्माण फार्मास्यूटिकाल्स् प्राइवेट लिमिटेड
30	15-14099	मेसर्स आदीत्य इन्फ्राडेजाइनर्स् प्राइवेट लिमिटेड
31	15-15125	मेसर्स भीजन् इन्डिआ मल्टीटेक् इन्फ्रा लिमिटेड
32	15-05216	मेसर्स मैत्री बील्डर्स् प्राइवेट लिमिटेड
33	15-12572	मेसर्स सि सेल होटेल्स् एनड मल्टिप्लेक्स् प्राइवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 25 जून 2014

सं. ल.सी/560(5) अफटीड - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:-

Sl. No	CIN NO.	कंपनी नाम
1	2	3
1	U24239KA2007PTC044631	बीके क्लिंसेल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U40101KA2003PTC032909	आकाश गंगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3	U85110KA1995PLC027861	ब्लूमिन्ग मीडोज लिमिटेड
4	U80301KA2001PLC029271	पिंकटोट इन्फार्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड
5	U01810KA2005PTC036632	पेय-ओटीए सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
6	U72200KA2009PTC050332	मोडस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U28900KA2007PTC042452	क्राफ्ट वर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	U18109KA2010PTC054698	बिट्सइंडिआना अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U74999KA2011PTC056565	नाट्यकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200KA2012PTC064266	सिंक्रोसीस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
11	U72900KA2011PTC061687	क्लाउडनेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
12	U72909KA2009PTC051807	अगिनो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U40102KA2010PTC053803	जीरो कार्बन एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U50404KA2011PTC056735	क्वेस्ट ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U45202KA2008SGC045742	अक्क्षय प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74999KA2007PTC043178	टलते जिओ स्पेसियल प्राइवेट लिमिटेड
17	U29305KA2011PTC057925	टामारिंड टेक्सीस प्राइवेट लिमिटेड
18	U74900KA2010PTC055434	रत्ना मल्टीसोर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
19	U17124KA2008PTC048546	परी एम्ब्रायडरी प्राइवेट लिमिटेड
20	U10200KA2011SGC057921	कर्नाटक एम्टा कोलियरीज लिमिटेड
21	U74910KA2000PTC027578	इप्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड
22	U51496KA2005PTC037842	अक्सिओन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U74140KA2008PTC047703	डेल्टारसिग्मा कंसल्टेंसी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
24	U51101KA2012PTC064705	क्युरिअन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U85100KA2012PTC063235	हेल्थ एनालिस्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
26	U52300KA2011PTC059995	३ क्लोसेट्स इ-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U72900KA2003PTC032661	टॉकिंग बुद्धा लर्निंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U40108KA2010PTC055945	आरवीए रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
29	U72900KA2011PTC061437	आईविज़ाबिलिटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U15411KA1994PTC015698	नौवेल्ले फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U72200KA2007PTC042308	जुबे मयक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U74120KA2010PTC055210	लैबोरेटरीज वीबीएन इंडस्ट्रियल & रिसर्च प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U25200KA2011PTC058606	लक्ष्मी पॉलीसैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ऐ. सेहर पोन्नराज
उप कंपनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 25 जून 2014

सं. ल.सी/560(5) अफटीड - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:-

SI. No	CIN	कंपनी नाम
01	U74999KA2011PTC057810	एंड टैलेंट स्काउट्स प्राइवेट लिमिटेड
02	U27106KA1977PTC003162	एक्सोथर्म प्राइवेट लिमिटेड
03	U72200KA2011PTC056749	कॉमस्टोर डिस्ट्रीब्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
04	U72900KA2012PTC063904	ब्लूडीमस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
05	U55101KA2012PTC065411	टिन्दीस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
06	U72900KA2012PTC067415	एडुकान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
07	U70102KA1995PTC017951	ओकवुड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
08	U72200KA2011PTC058466	विप्रथि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
09	U72200KA2013PTC069738	इन्टेन्ट्री सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U24100KA2011PTC060452	निऑन न्यूट्रासूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U17121KA2007PTC043372	श्रीरंगा कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U02212KA2005PTC037513	इंटेलेक्ट पब्लिशिंग हौस प्राइवेट लिमिटेड

सुशील कुमार
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad – 500 052, the 25th June 2014

No.15011/11/2014-Estt----In pursuance of MHA O.M. No.I.21015/1/2014-IPS-IV dated 10.06.2014, Shri S. Praveen Kumar, IPS (OD:2002) is appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad in Pay Band-3, Rs.15,600 – 39,100/- with Grade Pay Rs.7,600/-, with effect from the forenoon of 17th June, 2014 or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

ARUNA BAHUGUNA
Director

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 30th June 2014

No. 5/1/2014-C.P.I. --The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased by 2 points and stood at 244 (two hundred forty four) for the month of May, 2014.

S. S. NEGI
Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai- 85, the 20th June 2014

No. PD/6(1)/2014-R-III/2014/7086----Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Bijendra Kumar Sharma, Assistant Security Officer(A), AMD, Jaipur to officiate as Security Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800/- in BARC, Vishakapatnam with effect from the forenoon of 23.05.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

The 23rd June 2014

No. PD/4(6)/2007-R-III/(Vol.II)2014/7197----Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. Rajeev, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 02.06.2014 in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

Mumbai-85, the 24th June 2014

No. PD/7(6)/2014/R-IV/SO(C)/ETG/7256----The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' Pay Band PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineer Grade 'C' in the Pay Band PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2013, in an officiating capacity until further orders:

Sl.No	Name of the official
(1)	(2)
1	Shri KARUPARTHI CHANDRA SEKHARA SURYA PRAKASARAO
2	Shri MAJEESH KUMAR ANCHALASSERY MANI

(1)	(2)
3	Shri SHAILESH SUDHAKAR DEOLEKAR
4	Shri KAMAL PRASAD CHAUDHARI
5	Smt ALPA YAMISH SHAH
6	Shri SURESH MARUTI CHOPADE
7	Kum BHARTI AGGARWAL
8	Shri OM PRAKASH VERMA
9	Shri KATLA PURUSHOTHAM
10	Shri T. PANDURANGA RAO
11	Shri M. RAMASUBRAMONIAN
12	Shri S. MOHAN KUMAR
13	Shri M.V.R. NARSAIAH
14	Shri NITIN AUGUSTIN BHOSALE
15	Smt SUSHEELA SIVAKUMAR
16	Smt SHALINI TEWARI
17	Shri JUGRAJ MALAV
18	Shri PRASUN MAITI
19	Kum MAITHILI M. TORASKAR
20	Shri P. KIRAN KUMAR

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(6)/2014/R-IV/SO(C)/ETG/7262----The President is pleased to appoint the undermentioned officials of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'C' in the pay band PB-3 of Rs. 15600-39100 + grade pay Rs. 5400, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2013, in an officiating capacity until further orders:

Sl.No	Name of the official	Desig
(1)	(2)	(3)
1	Shri SRIKANT SAHOO	SA D
2	Shri AKHIL KUMAR DUBEY	SA D
3	Dr Smt SUNITA SHASHIKANT GAMRE	SA E
4	Shri TRILOCHAN GADLY	SA D
5	Shri AMEY PANDURANG WADAWALE	SA D
6	Shri PAL MANOJKUMAR MANIKCHANDRA	SA D
7	Smt JISHA STYLEMON PILLAI	SA D

(1)	(2)	(3)
8	Shri NAVEEN KUMAR	SA D
9	Shri JITENDRA SINGH	TECH F
10	Shri MD. ARZOO ANSARI	SA C
11	Shri JEETENDRA SHIV BAHADUR SINGH	SA D
12	Shri PRADEEP KUMAR	SA D
13	Shri VINOD KUMAR VERMA	TO B
14	Smt CHARU SRIVASTAVA	SA D
15	Shri JALAJ VARSHNEY	SA D
16	Shri A. MUTHUKRISHNAN	SA C
17	Shri AMOL MADHUKAR MHATRE	SA D
18	Shri BHAKTIVINAYAGAM ARUL	SA D
19	Shri GOPAL PRASAD VERMA	SA E
20	Shri TEJ RAM MEENA	TO B
21	Smt PRIYA VIJAY GIRAP	TO B
22	Shri NEERAJ KUMAR	SA D
23	Shri DILIP KUMAR	TO B
24	Shri SHYAM KUMAR SINGH	TO B
25	Shri KAMLE AMIT RAVINDRA	SA D

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 9th June 2014

No. 6(1151)/89/Adm./7167---- Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. Manisha S. Velhal, Personal Assistant (PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600) (MACP), DAE, Mumbai, as Private Secretary (PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4800), in the same Department with effect from the forenoon of March 21, 2014.

Smt. Manisha S. Velhal will be on probation for a period of one year with effect from March 21, 2014.

N.V.S.V. PRASAD
Under Secy.

The 10th June 2014

No. 6(2662)/2014-Adm/7233----The President is pleased to appoint Shri K. Padmanabhan, Chief Administrative Officer (PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 7600), Nuclear Recycle Board, Mumbai as Deputy Legal Adviser (PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 7600), in Nuclear Controls and Planning Wing, DAE, Mumbai on deputation basis with effect from the forenoon of May 19, 2014 for a period upto 30.10.2016 or until further orders whichever is earlier.

N.V.S.V. PRASAD
Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 2013 and of M/s NATRON INFOSYSTEMS LIMITED

New Delhi -110019, the 27th June 2014

No. 560(3) MCA/ROC-Delhi/sec 560/2014/00008/4740---Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 2013, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. NATRON INFOSYSTEMS LIMITED, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 30th June 2014

No. RoC/Delhi/560(5)/FTE-2011/4776---Notice is hereby given pursuant to sub-section(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:-----

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
1	U93000DL2009PTC197406	A STAR SECURITY AND H R SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U72900DL2002PTC114373	AASTHA WEB INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U70101HR2013PTC049057	ADEYINKA REALTORS PRIVATE LIMITED
4	U74899DL1991PTC043116	ADION ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
5	U70100DL2007PTC161582	ADVENTURE PROPMART PRIVATE LIMITED
6	U51109DL2006PTC151716	AKASTIA RETAIL PRIVATE LIMITED
7	U65993DL2006PTC144534	ALLEGRA INVESTMENT PRIVATE LIMITED
8	U63000DL2011PTC218862	ALLIANCE TRANS LOGIC PRIVATE LIMITED
9	U45201DL1997PTC087395	ALUMET (INDIA) PRIVATE LIMITED
10	U51909DL2008PTC185732	AMA RETAILS PRIVATE LIMITED
11	U55101DL2010PTC210906	AMATRA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
12	U74140DL2007PLC168849	AMAZER TECHNO-CONSULTANTS LIMITED
13	U74899DL1990PTC038801	AMBIENCE AGENCIES PRIVATE LIMITED
14	U70109DL2010PTC205922	AMBUSH REALTORS PRIVATE LIMITED
15	U85100DL2011PTC217678	AMD MEDEXPERT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	U51109DL2008PTC174175	ANCHAL CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
17	U65100DL2013PTC257126	APLITE FINANCE PRIVATE LIMITED
18	U74999DL2009PTC188630	ARISTO POWER TOOLS & SPARES PRIVATE LIMITED
19	U92190DL2011PTC222175	ART OF LIFE CELEBRATIONS PRIVATE LIMITED
20	U74140DL2007PTC163553	ARTHSHAstra CONSULTING PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
21	U31908DL2010PTC198064	ARTLEDZ LIGHTING PRIVATE LIMITED
22	U61100DL2005PTC133332	ARYAN SHIP CHARTERING AND MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U32109DL2005PTC137181	ARYASH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
24	U74140DL2011PTC213388	ASHA MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
25	U29130DL2011PTC226488	ASTER PRECISION COMPONENTS PRIVATE LIMITED
26	U17291HR2005PTC035969	ATM EMBROIDERY PRIVATE LIMITED
27	U29299HR2005PTC035968	ATM HOLOGRAM PRIVATE LIMITED
28	U51909DL2012PTC235686	ATOOT RETAIL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	U74899DL1983PTC016249	ATTALIKA CHIT FUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED
30	U85120DL2011PTC225086	AUM ED MED HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
31	U45201DL2006PTC147900	AURA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
32	U80900DL2012PTC238191	AVITRAINS SERVICES PRIVATE LIMITED
33	U24100DL2010PTC199669	AYU FLORA NATURALS PRIVATE LIMITED
34	U74899DL1973PTC006920	B.M. ASSOCIATES (DELHI) PRIVATE LIMITED
35	U45200HR2008PTC038187	BABA MOHAN RAM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
36	U45201DL1996PTC082112	BAGAI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
37	U17120HR2008PTC038230	BAJRANG TEXOFAB PRIVATE LIMITED
38	U74899DL1995PLC068215	BANCAPITAL INDIA LIMITED
39	U74900DL2012PTC230968	BASS MERCANTILE PRIVATE LIMITED
40	U45200DL2008PTC176367	BELGIQUE DEVELOPERS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
41	U45201DL2006PTC147896	BELVEDERE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
42	U20299DL2009PTC194871	BEYOND BORDERS TIMBER PRIVATE LIMITED
43	U74210DL2007PTC161100	BIGBOSS MARKETING PRIVATE LIMITED
44	U80302DL2011PTC229404	BINOC'S HEALTHCARE ACADEMY PRIVATE LIMITED
45	U72300DL2008PTC178347	BISON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
46	U74899DL1992PTC050487	BLH PUBLISHERS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
47	U45201DL2006PTC145555	BLOOM CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	U74899DL1988PTC031884	BLUE BIRD SERVICES PRIVATE LTD
49	U70102DL2011PTC228001	BLUE HEAVEN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
50	U45400DL2010PTC207711	BRAHM STONE CRUSHING PRIVATE LIMITED
51	U52300DL2011PTC213966	BRAIN RIVER MARKETING PRIVATE LIMITED
52	U22100DL2012PTC242921	BRAND CRAFTER MEDIA PRIVATE LIMITED
53	U22219DL2006PTC151609	C2K GRAPHICS PRIVATE LIMITED
54	U80301DL2012PTC232395	CANDEL TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
55	U74994DL2008PTC178354	CHIRAG HOME FASHIONS PRIVATE LIMITED
56	U29100DL2010PTC197690	COLT CLIMATE CONTROL PRIVATE LIMITED
57	U74899DL1992PTC050274	CONNECT INDIA PRIVATE LIMITED
58	U74999DL2009PTC192001	COURTYARD OVERSEAS PRIVATE LIMITED
59	U70109DL2006PTC159062	CROSSINGS BUILDWELL PRIVATE LIMITED
60	U70109DL2006PTC152428	CROSSINGS CITY PRIVATE LIMITED
61	U70109DL2006PTC151076	CROSSINGS CORPORATE PARK PRIVATE LIMITED
62	U70109DL2006PTC151075	CROSSINGS GREENS PROPERTY PRIVATE LIMITED
63	U70109DL2006PTC152427	CROSSINGS HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
64	U70109DL2006PTC151494	CROSSINGS REALTY PRIVATE LIMITED.
65	U70109DL2006PTC151671	CROSSINGS RESIDENCY PRIVATE LIMITED.
66	U70109DL2006PTC151495	CROSSINGS TOWERS PRIVATE LIMITED
67	U70109DL2006PTC151257	CROSSINGS TOWNSHIP PRIVATE LIMITED.
68	U74140DL1996PTC082267	CROWN AGENTS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
69	U34102DL2013PTC255411	DEEP BROTHERS AUTO WORKS PRIVATE LIMITED
70	U63040DL1999PTC100928	DEEP HEIGHTS TRAVELS PVT LTD
71	U15410DL2012PTC245116	DEVADIDEV FOODS PRIVATE LIMITED
72	U70109DL2012PTC244216	DHANSAMRIDHI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
73	U70109DL2012PTC245269	DHANSAMRIDHI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
74	U45200DL2008PTC174829	DHARAMPAL VIMLARANI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
75	U70101HR2013PTC049087	DHOMNVARNA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
76	U51909DL2003PTC123406	DIJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
77	U45200DL2006PTC156491	DISHANATH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
78	U72900DL2005PTC138674	DK IT JUNCTION PRIVATE LIMITED
79	U45400DL2007PTC162203	DLT CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
80	U74900DL2013PTC252985	DN SVASMED PRIVATE LIMITED
81	U67120DL2000PTC107433	DOT COM HOLDINGS PRIVATE LIMITED
82	U18101DL2008PTC181444	DOUBLE EMM GARMENTS PRIVATE LIMITED
83	U51909DL2012PTC246300	DREAMERS DELIGHT INDIA PRIVATE LIMITED
84	U70100DL2010PTC205954	DROVE REALTORS PRIVATE LIMITED
85	U70102HR2012PTC045049	DVR REALCON PRIVATE LIMITED
86	U70109HR2012PTC045066	DVR REALTY PRIVATE LIMITED
87	U70109DL2006PTC151230	DYNAMIC TOWERS PRIVATE LIMITED
88	U74999DL2000PTC105539	E M TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
89	U63040DL2008PTC178928	ECO ADVENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
90	U55101DL2008PTC182618	ECO ADVENTURES RESORTS PRIVATE LIMITED
91	U72900DL2008PTC178097	EDEN SOFTECH PRIVATE LIMITED
92	U70102DL2010PTC209348	EIR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
93	U17200DL2010PTC197903	ELEGANTVILLA FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
94	U18101DL2006PTC149502	ELEGENT GARMENTS PVT LTD
95	U65100DL2013PTC252025	ENTOURAGE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
96	U74140DL2010PTC210872	ESPACE CORPORATE ART INITIATIVES PRIVATE LIMITED
97	U51226DL2008PTC183641	FARMGATE MILK PRIVATE LIMITED
98	U51900DL2009PTC190151	FASHION CRAFTS EXIM PRIVATE LIMITED
99	U64120DL2002PTC113954	FAST MAIL COURIERS PRIVATE LIMITED
100	U36911DL2005PTC139335	FEMINA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
101	U72900DL2012PTC229727	FLASH GAMES PRIVATE LIMITED
102	U51909HR2010PTC041453	FLEXSIGHT MARKETING PRIVATE LIMITED
103	U73100DL2011PTC217109	FORTUNE RESEARCH REPORTS PRIVATE LIMITED
104	U72900DL2011PTC217639	FOSTER INFOTECH PRIVATE LIMITED
105	U74899DL1990PTC041901	FRONTIER CARGO NETWORK PRIVATE LIMITED
106	U51909DL2009PTC189870	FUTUREVISION TRADENET PRIVATE LIMITED
107	U70101DL2010PTC210458	GANGADHAR BUILDWELL PRIVATE LIMITED
108	U65921DL1997PTC086297	GARDEN PROJECTS AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
109	U70101DL2012PTC232431	GAVO GLOBAL REALTORS PRIVATE LIMITED
110	U74899DL1987PTC028622	GEE DEE AGENCIES PRIVATE LTD
111	U40100DL2007PTC170082	GENEXT ENERGY CONVERSION PRIVATE LIMITED
112	U74900HR2009FTC039532	GEOSPATIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
113	U74140DL2008PTC183229	GI C A TECHNICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
114	U52393DL1999PTC100717	GLITTERATI CREATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
115	U51109HR2008PTC037529	GOOD MORNING INDIA BAKERS PRIVATE LIMITED
116	U70100DL2010PTC210411	GOPESH INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
117	U15200DL2010PTC208359	GREATVALUE FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
118	U60200DL2011PTC216419	GREATVALUE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
119	U40104DL2009PTC197042	GREATVALUE POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
120	U45201DL2006PTC146713	GROWFAST PROPERTIES PRIVATE LIMITED
121	U17299DL2007PTC160494	H N TEXTILE PRIVATE LIMITED
122	U45201DL2001PTC109232	HARSHDEEP PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
123	U85190DL2012PTC245347	HEAD AND SPINE PAIN MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
124	U29253DL2009PTC188178	HEWITT ROBINS INDIA PRIVATE LIMITED
125	U22212DL2005PTC143274	HILTON GRAPHICS PRIVATE LIMITED
126	U11100DL2009PTC197495	HSR PRIME ENGINEERING PRIVATE LIMITED
127	U72200DL2004PTC128532	IBSINDIA CONSULTING PRIVATE LIMITED
128	U92419DL2010PTC200880	IMPACT SPORTS SERVICES PRIVATE LIMITED
129	U74900DL2008PTC184053	IMPACT VALUE STORES PRIVATE LIMITED
130	U45400DL2007PTC167003	IMPRESSIONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
131	U52100DL2009PTC190020	INCREDIBLE IMPEX PRIVATE LIMITED
132	U15494DL2012PTC238938	INDICA NUTRI FOODS PRIVATE LIMITED
133	U70101DL2012PTC244190	INDICA REALTECH PRIVATE LIMITED
134	U74140DL2008PTC175061	INFORMATICS MEDIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
135	U72900DL2011PTC225402	INNOVER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
136	U74120DL2007PTC167603	INTERNATIONAL RENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
137	U74140DL2013PTC253064	INVITEE EVENT PLANNER PRIVATE LIMITED
138	U85110DL2006PTC147380	JAN HITASHI HOSPITAL PRIVATE LIMITED
139	U74991DL2006PTC148510	JANUS CREATION PRIVATE LIMITED
140	U21013DL2001PLC110633	JASMINE PAPER RESOURCES LIMITED
141	U45200DL2012PTC232532	K K HOUSING PRIVATE LIMITED
142	U51397DL2008PTC180739	KAMADHENU AYURVEDA PRIVATE LIMITED
143	U72900DL2002PTC118210	KANTA INFOTECH PRIVATE LIMITED
144	U24119DL2004PTC131240	KHUSHI CHEMTEx PRIVATE LIMITED
145	U18101DL2008PTC176053	KINGS FABRICARE PRIVATE LIMITED
146	U65992HR1991PTC031297	KONIX CHITS PRIVATE LIMITED
147	U45400DL2008PTC185430	KSP CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
148	U74899DL1986PTC024430	KULWANT ENGINEERING WORKS PRIVATE LTD
149	U74899DL1995PTC068533	LAKEVIEW MARKETING PRIVATE LIMITED
150	U45400DL2007PTC168603	LAXMI INFRABUILD PRIVATE LIMITED
151	U74140DL2003PTC119828	LEGENDARY LEGAL AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
152	U51909DL1992PTC050061	LICHCHHAVI NIRYAT PRIVATE LIMITED
153	U51909DL2007PTC161208	LIFESTYLE EXIM PRIVATE LIMITED
154	U45200DL2011PTC221095	LUCULENT BUILDWELL PRIVATE LIMITED
155	U74899DL1994PLC063882	M G AGRO PROCESSORS LIMITED
156	U93000DL2012PTC242159	M K R SERVICES PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
157	U51909DL2013PTC253525	MAGICARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
158	U74899DL1991PTC048716	MAHAVEERA GASES PRIVATE LIMITED
159	U74140DL2008PTC180402	MANIFOLD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
160	U70109DL2012PTC237632	MAPSCON BUILDTECH PRIVATE LIMITED
161	U70100DL2010PTC205438	MARACAS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
162	U92199DL2003PTC119480	MARS EVENTS PRIVATE LIMITED
163	U74120DL2007PTC162417	MAX CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED
164	U72900DL2007PTC164230	MDK TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
165	U70101DL2012PTC240545	MEGATRIM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
166	U70101DL2011PTC213310	MILESTONE INFRATECH PRIVATE LIMITED
167	U74140DL2010PTC209867	MIND AVENUES MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
168	U72900DL2011PTC227372	MOON APPS. DBA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
169	U74899DL1994PTC061969	MTH INDIA PRIVATE LIMITED
170	U70100DL2013PTC256459	MURLIDHAR BUILDTECH PRIVATE LIMITED
171	U70100DL2013PTC256014	MURLIDHAR INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
172	U70100DL2013PTC255907	MURLIDHAR REALTORS PRIVATE LIMITED
173	U51909DL2005PTC134266	N S V R IMPEX PRIVATE LIMITED
174	U01400DL2010PTC205315	NANDAL DAIRY AND RURAL INTEGRATIONS PRIVATE LIMITED
175	U31901DL2006PTC157087	NARANG PRECISION COMPONENTS PRIVATE LIMITED
176	U55101DL2006PTC148828	NAVIGATE RESTAURANT BRANDS (INDIA)PRIVATE LIMITED
177	U72300DL2012PTC231828	NEOWORLD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
178	U74999HR2011PTC043258	NEW ERA LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
179	U74920DL2010PTC210650	NEWGEN SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
180	U24233DL2004PTC129784	NOIDA AYURVED PRIVATE LIMITED
181	U74899DL1996PLC075115	NUWAVE PHARMACEUTICALS LIMITED
182	U18101DL2008PTC179899	ORANGE TREE APPAREL PRIVATE LIMITED
183	U65900DL2010PTC208832	OSTLER FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
184	U51909DL2010PTC197904	PALM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
185	U72300DL2008PTC172412	PARAMHANS XPO INFOTECH PRIVATE LIMITED
186	U55100HR2011PTC042163	PARROT HOTELS PRIVATE LIMITED
187	U51311HR2002PTC034960	PBS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
188	U74899DL1986PTC023376	PEARL CERAMICS PRIVATE LTD.
189	U40101DL2011PTC214474	PGA POWERSUN TECH PRIVATE LIMITED
190	U70102DL2009PTC196287	PIHU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
191	U72200DL2005PTC135917	PITNEY BOWES SOFTWARE PRIVATE LIMITED
192	U72200DL2004PTC131743	PLANET CYBERTECH PRIVATE LIMITED
193	U70200DL2010PTC210536	PRIYABHAKTA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
194	U18101DL2011PTC218381	PRIYANKA BHALLA EXPORTS PRIVATE LIMITED
195	U74999DL2004PTC128793	PUNEET MOULDED PRIVATE LIMITED
196	U45201DL2002PTC116974	PURVI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
197	U35122DL2007PTC166117	Q-PLUS AUTO PRIVATE LIMITED
198	U74120DL2008PTC183680	R & R BUILDESTATES PRIVATE LIMITED
199	U72900DL2004PTC127466	R I NETALAYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
200	U70101DL2010PTC199415	R P SINGH REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
201	U70102DL2013PTC260975	RADIANCE CORPORATE HOMZ PRIVATE LIMITED
202	U51311DL2004PTC129783	RAJANI GARMENTS PRIVATE LIMITED
203	U74120DL2008PTC175203	RAMA CALPACK PRIVATE LIMITED
204	U45200DL2007PTC161024	RANGOLI TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED
205	U72200HR2011PTC043259	RAVIRA INTERNET RETAIL PRIVATE LIMITED
206	U52300DL2011PTC215341	RBR SALES (INDIA) PRIVATE LIMITED
207	U45400DL2007PTC170110	RCON ENGINEERING CONTRACTS PRIVATE LIMITED
208	U70200DL2012PTC229645	REMAXX CONSORTIUM REALITIES PRIVATE LIMITED
209	U74999DL2012PTC232765	RGB RESOURCE MEDIA PRIVATE LIMITED
210	U72100DL2013PTC257492	RHC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
211	U70200HR2013PTC048984	RISHESWAR BUILDCON PRIVATE LIMITED
212	U45201DL1994PTC058867	RNS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
213	U70109DL2006PTC152282	ROSE BUILDTECH PRIVATE LIMITED
214	U62200DL2007PTC167219	ROTORJET AIR CONCEPTS PRIVATE LIMITED
215	U74999DL2013PTC261427	RSM ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
216	U51900DL2012PTC244087	RUDRALITE TRADEX PRIVATE LIMITED
217	U70109DL2013PLC249560	SAI SUNBEAM INFRABUILD CORPORATION LIMITED
218	U70109DL2006PTC151322	SAKSHAM PROPERTIES PRIVATE LIMITED
219	U51909DL2006PTC155899	SANJEEV INDUSTRIAL CORPORATION PRIVATE LIMITED
220	U80904DL2008PTC185356	SAPIENT EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
221	U74140DL2005PTC139118	SAPRAS MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
222	U74899DL1980PTC010191	SARDA OIL INDUSTRIES PRIVATE LTD
223	U72200DL2007PTC161553	SATCOM NETWORKS PRIVATE LIMITED
224	U92190DL2010PTC203553	SCALE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
225	U51909DL2012PTC238385	SEEBIR EVENTURES PRIVATE LIMITED
226	U45201DL2006PTC145931	SENIOR INFRABUILD PRIVATE LIMITED
227	U65993DL2000PTC104313	SHAKUN CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
228	U72200DL2007FTC171934	SHEFFIELD HAWORTH SOFTWARE DEVELOPMENT KNOWLEDGE CENTER INDIA PRIVATE LIMITED
229	U74910DL2008PTC183625	SHELKIER MANPOWER PRIVATE LIMITED
230	U70109DL2006PTC154369	SHOURYA DUROBUILD PRIVATE LIMITED
231	U45400DL2008PTC172180	SHOURYA REALCON INDIA PRIVATE LIMITED
232	U70109DL2010PTC199254	SHRI LALJI INFRACON PRIVATE LIMITED
233	U40104DL2010PTC204840	SHRI LALJI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
234	U62200DL2007PTC160007	SHWETHA AIR CARGO PRIVATE LIMITED
235	U92190DL2008PTC178644	SIRDI SAI EVENTS PRIVATE LIMITED
236	U51900HR2010PTC040257	SMART STEPS MARKETING PRIVATE LIMITED
237	U72200DL2007PTC161095	SOFTAGE MARKETING PRIVATE LIMITED
238	U55101DL1992PTC050405	SOLANG RESORTS PRIVATE LIMITED
239	U74899DL1985PTC020161	SOUTH ASIA MARKETING CO PRIVATE LIMITED
240	U36101DL2002PTC117061	SPACEWORKZ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
241	U45402DL2008PTC184061	SPLENDID INFRAREALITY VENTURES PRIVATE LIMITED
242	U92400HR2013PLC049219	SRS CINEMAS & ENTERTAINMENT LIMITED
243	U52609HR2013PLC049291	SRS MODERN RETAIL LIMITED
244	U15139HR2013PLC049518	SRS ROYAL BITES LIMITED
245	U74140DL2008PTC177136	SSK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
246	U64202DL2005PTC139998	STAR E-SERVICES PRIVATE LIMITED
247	U25202DL2005PTC136167	STICKCRAFT PROPACK PRIVATE LIMITED
248	U93000DL2014PTC263585	STONED APE STUDIOS PRIVATE LIMITED
249	U70101DL2013PTC262178	SUHANI BUILDTECH PRIVATE LIMITED
250	U13203DL2006PTC146553	SUMEERU MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
251	U74140DL2010PTC207943	SUN OFFICE SOLUTION SERVICES PRIVATE LIMITED
252	U25206HR1990PTC030927	SURYA HYDROLICS PVT.LTD.
253	U72300DL2011PTC226621	SWAR INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
254	U52100DL2011PTC215999	SYD RETAIL PRIVATE LIMITED
255	U45101DL2001PTC110234	T P GUPTA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
256	U74900DL2009PTC196908	TANYA ELECTRICAL AND CIVIL WORKS PRIVATE LIMITED
257	U32304DL2005PTC138643	TARANG DIGITAL STUDIOS PRIVATE LIMITED
258	U10200DL2005PTC143938	TARASAGAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
259	U72300DL2007PTC169548	TECHNO LATTICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
260	U51900HR2012PLC044782	TECHNOPHILE COMMERCIAL LIMITED
261	U72300DL2006PTC156998	TECHVICTUS SOFTWARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
262	U74899DL1988PTC033526	TELENETS SOFTWARE AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
263	U74999DL2012PTC233298	THE PEOPLE DEVELOPMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
264	U72200DL2010PTC201850	THINKTANK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
265	U29268DL1997PTC085250	TOPSLOT ENGINEERING COMPONENTS PRIVATE LIMITED
266	U93000DL2009FTC189690	TRADECO CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
267	U80210DL2013PTC247366	TRANS ATLANTIC EDUCATIONAL TRIPS PRIVATE LIMITED
268	U36995DL2010PTC200150	TRANS INDIA COSMETICS PRIVATE LIMITED
269	U72300DL2010PTC200325	TRANS INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
270	U51101HR2010PTC039906	TRIANGLE STOCKS PRIVATE LIMITED
271	U45200DL2007PTC160876	TRIDEV PROPMART PRIVATE LIMITED
272	U52100DL2007PTC168460	TROCELLEN INDIA PRIVATE LIMITED
273	U74999DL1998PTC093319	UK IMMIGRATION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
274	U35990DL2011PTC212820	UNIQUE ROLLER BEARING PRIVATE LIMITED
275	U11101DL1999PTC100325	UNITED DRILLING ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
276	U74140DL2012PTC240251	UNIVERSAL RESEARCH MINE PRIVATE LIMITED
277	U17111DL2000PTC108393	UNR OVERSEAS PRIVATE LIMITED.
278	U93000DL2011PTC217310	UP BRIDGE ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
279	U18101DL1988PTC034258	UPPAL FASHIONS PRIVATE LIMITED
280	U52312DL2012PTC240516	UV COLOR CHANGE COSMETICS PRIVATE LIMITED
281	U51909DL2012PTC232916	UV COLOR CHANGE CREATIONS PRIVATE LIMITED
282	U45201DL2006PTC145554	VAIBHAV ESTATES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
283	U51433DL2004PTC131241	VAKI ARCHITECTURAL SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
284	U72900DL2000PTC103666	VED PRAKASH SOFTECH PRIVATE LIMITED
285	U32202DL2004PTC128872	VERSATILES ELECTROTECH PRIVATE LIMITED
286	U93000DL2012PTC233109	VIDHATA EDUHEALTH PRIVATE LIMITED
287	U45200DL2008PTC175735	VIMLARANI VIJAY AGGARWAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED
288	U45400DL2007PTC171306	VISHISHT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
289	U45400DL2011PTC214793	VSK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
290	U72900DL2010PTC198374	VWIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
291	U72900DL2000PLC107025	WEB GAINZ LTD
292	U85110DL2010PTC203000	WELLOGIC HEALTHNET PRIVATE LIMITED
293	U74999DL2006PTC155361	WELLOGIC INDIA PRIVATE LIMITED

SL. NO	CIN	COMPANY NAME
294	U74140DL2011PTC219131	WIN WIN MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
295	U72300DL2008PTC180075	WIOSKA INFOSERVICE PRIVATE LIMITED
296	U36101DL1998PTC091842	WOODSTOCK RHINE PRIVATE LIMITED
297	U51909DL2012PTC241941	WTH INDIA PRIVATE LIMITED
298	U51311DL2004PTC129581	Y B GARMENTS PRIVATE LIMITED
299	U22211DL2013PTC256348	YELLOW GATE VENTURES PRIVATE LIMITED
300	U29220DL2011PTC212761	YOGESH MACHINERY TOOLS PRIVATE LIMITED
301	U24232DL2009PTC196132	ZYDOM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

RAJNEESH KUMAR SINGH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur- 208001, the 26th June 2014

No.LC/560(3)/1298---Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:----

Sl No	Company Name	Cin No.
1	2	3
1	LAKSHYA AVASAR MARKETING PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC028077
2	S.KUMAR'S VISION INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028071
3	VIGOROUSS INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66010UP2003PTC028074
4	SKY LAB MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC028057
5	IDEAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U22121UP2003PTC028046
6	VOYAGE SHOWS & PROMOTIONS PRIVATE LIMITED	U92141UP2003PTC028048
7	ACCURATE CALL PRIVATE LIMITED	U80902UP2003PTC028042
8	JAISWAL BUILDCON COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC028037
9	JANKI DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45203UP2003PTC028040
10	ALLIANCE DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC028041
11	PANCHVATI MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028034
12	SEHJAS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80101UP2003PTC028031
13	MINUS PLUS ZERO EXPORTS PRIVATE LIMITED	U62190UP2003PTC028016
14	AVR SERVICES PRIVATE LIMITED	U80903UP2003PTC028017
15	SHOES UNLIMITED PRIVATE LIMITED	U19202UP2003PTC028019
16	RED ROSE GARMENTS PRIVATE LIMITED	U18101UP2003PTC028020
17	HEAVENWAY SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028006
18	ADVANCE MARKET RESEARCH & SOCIAL INFORMATION PRIVATE LIMITED	U74130UP2003PTC027996

1	2	3
19	VINDHYAVASINI SURGICAL PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027860
20	ADVISION MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027981
21	SGV MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027983
22	SAM DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2003PTC027978
23	BONAFIDE NET SERVICES PRIVATE LIMITED	U52334UP2003PTC027973
24	MANGLAM TRACTORS PRIVATE LIMITED	U50101UP2003PTC027972
25	OMGURU OILS PRIVATE LIMITED	U15142UP2003PTC027968
26	G I FOREIGN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040UP2003PTC027969
27	K. S. CASTING PRIVATE LIMITED	U27104UP2003PTC027961
28	ACME SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027964
29	GOLDENFUTURE SALES & MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027952
30	BANODHIA PRAKASHAN PRIVATE LIMITED	U22122UP2003PTC027953
31	LEADING INDIA SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027955
32	TRUEFRIENDS MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027959
33	NETWAY INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74300UP2003PTC027960
34	RESTORA FOAMS PRIVATE LIMITED	U17226UP2003PTC027945
35	GOLDENSKY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027948
36	LIFELINE DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027943
37	TIME BASE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027913
38	THINK INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027919
39	LOTUS MEDICAL DEVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U85110UP2003PTC027906
40	H.R.HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC027901
41	HEALTHLINE FORMULATIONS PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC027897
42	NARESH PETROLEUM PRIVATE LIMITED	U50500UP2003PTC027865
43	MAHARAJA AGRASEN SHIKSHAN SANSTHAN PRIVATE LIMITED	U80302UP2003PTC027849
44	S.K.REAL ESTATE PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U70109UP2003PTC027853
45	HELIOS INFO-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200UP2003PTC027833
46	AVON BUSINESS SYSTEM PRIVATE LIMITED	U51399UP2003PTC027811
47	AAI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U45201UP2003PTC027810
48	RELIABLE INSURANCE CARE SERVICE PRIVATE LIMITED	U66010UP2003PTC027792
49	BRIGHTFUTURE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC027791

S P KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur- 208001, the 27th June 2014

No.LC/560(5)/1312---Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved:----

SI No	Company Name	Cin No.
1	2	3
1	KARAN ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC030685
2	FIRST ASSEMBLING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2005PTC030669

1	2	3
3	V-TEL MARKETING AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U52603UP2005PTC030658
4	AGALZ BIOCOM PRIVATE LIMITED	U24232UR2005PTC030631
5	DYNAMIC DIRECTLINK MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2005PTC030599
6	DWARKESH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2005PTC030537
7	ASTHA SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2005PTC030427
8	LORD VISHNU ESTATES PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC030506
9	RITEESH SORTEX PRIVATE LIMITED	U15311UP2005PTC030509
10	SARVAVIDYA PUBLISHING HOUSE PRIVATE LIMITED	U22121UP2005PTC030510
11	VITALIZE HERBS PRIVATE LIMITED	U24233UP2005PTC030501
12	SUPPORT MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51109UP2005PTC030491
13	ADITYA LIVESTOCK TRADERS PRIVATE LIMITED	U74999UP2005PTC030456
14	RIGHTWASH DOMESTIC CLOTHE CLEANING AND DRY CLEANING SERVICES PRIVATE LIMITED	U93010UP2005PTC030459
15	NEOPACKETS COMMUNICATION INDIA PRIVATE LIMITED	U72200UP2005PTC030450
16	VISION ONE NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2005PTC030454
17	GREEN ROADWAYS TRANSPORT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U60232UP2005PTC030235
18	MISSION FORWARDING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U60231UP2005PTC030213
29	PARASMANI SEEDS PRIVATE LIMITED	U01122UP2005PTC030173
20	GORAKSH FOODS PRIVATE LIMITED	U15440UP2005PTC030151
21	GANANDHIRAJA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC030020
22	L C A AGRO PRIVATE LIMITED	U01112UP2005PTC029657
23	VIKALP CAPITAL CARE PRIVATE LIMITED	U67190UP2005PTC029532
24	VISHVAMITRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC029476
25	AAKASH COACHING PRIVATE LIMITED	U80211UP2005PTC029477
26	COLOSSEL MARKETING AND EDUCATION PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC029349
27	IATRO LABS PRIVATE LIMITED	U73100UP2004PTC029119
28	SURI REALTORS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029112
29	V3 EXIM OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U18101UP2004PTC028920

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
U.P. & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur- 208001, the 27th June 2014

No.LC/560(3)/1313----Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following

companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:----

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
1	2	3
1	NAUGARIA AGRO FORESTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01122UP2004PTC028903
2	MUGAL PLASTERS PRIVATE LIMITED	U26952UP2004PTC028892
3	SHREE PRAGYA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028893
4	GREEN WITCH EXPORTS PRIVATE LIMITED	U19123UP2004PTC028894
5	ADINATH HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC028891
6	PEARL INDIA INFOWARE PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028890
7	LIFE VISION SALES AND DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028882
8	SATYAM SHIVAM SUNDARAM FABRICATORS PRIVATE LIMITED	U26964UP2004PTC028869
9	ZWITTER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028875
10	4 DIMENSIONS TRAVEL (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028863
11	PUSHPLATA ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U63022UP2004PTC028868
12	SISODIA INVERT SUGAR PRIVATE LIMITED	U15421UP2004PTC028854
13	RISHIPOOJA ENERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29119UP2004PTC028846
14	PARSHIV PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028843
15	ZEEMIQ PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028838
16	KALANCHAL FILMS AND MUSIC COMPANY PRIVATE LIMITED	U92114UP2004PTC028823
17	D R P S PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028820
18	DREAMWORLD E-SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028821
19	CORAL MACKEREL MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028810
20	UDAY MARKFIN SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028812
21	GREENHOUSE BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028813
22	SUHIMI CONSULTANCIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140UP2004PTC028809
23	NLG CHEMICALS CO PRIVATE LIMITED	U51434UP2004PTC028796
24	DAWN SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028792
25	SUPER DATA PROCESSOR PRIVATE LIMITED	U80221UP2004PTC028795
26	SWARNIM SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028788
27	AL-MIZAN FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED	U15139UP2004PTC028791
28	SHYAMA LIFELINE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028782
29	IMAGINATION EDUCATION CENTRE PRIVATE LIMITED	U80211UP2004PTC028777
30	S.S.PETRONET OILS AND GAS SERVICES PRIVATE LIMITED	U51410UP2004PTC028753
31	D B S SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028747
32	NAVGRAH BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028748
33	PRACTICAL MERCANTILE CO PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028733
34	VISHAMBHER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U10102UP2004PTC028728

1	2	3
35	SHRI SHOBHA RAM FOODS PRIVATE LIMITED	U15135UP2004PTC028719
36	INDOO INFOCOM PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028584
37	SAPTARISHI MERCANTILE SALES PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028714
38	SUSHTI INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66030UP2004PTC028716
39	NEW SUM MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028718
40	NEELKAMAL HITECH TRADING PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028709
41	ARYANS MERCANTILE SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028704
42	MICRO INFOSYS COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80302UP2004PTC028701
43	GANPATI ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92141UP2004PTC028682
44	SWARNISHA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028680
45	REXIMED PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028678
46	KUNICA MARKETING PRIVATE LIMITED	U52334UP2004PTC028666
47	KRIPA SHANKAR BUILDERS PRIVATE LIMITED	U51432UP2004PTC028639
48	SUKRITI FINCON PRIVATE LIMITED	U65922UP2004PTC028641
49	ASHNA CERAMICS PRIVATE LIMITED	U26914UP2004PTC028644
50	ARISING FUTURE IN SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028636
51	DIAMONDPRISM AGROTECH PRIVATE LIMITED	U02001UP2004PTC028637
52	CAMERA EYE FILM DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U92112UP2004PTC028631
53	ALOK HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028632
54	SHANTI ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300UP2004PTC028620
55	SEVEN STAR CONCEPTS SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028571
56	AASRA ASSOCIATE SALES PRIVATE LIMITED	U29308UP2004PTC028573
57	AMRIT HERBALS PRIVATE LIMITED	U24233UP2004PTC028578
58	IDEAL CIRCULATION WAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028534
59	REBRU BRUSH COMPANY PRIVATE LIMITED	U24229UP2004PTC028536
60	GATI PETROLIUM PRIVATE LIMITED	U50500UP2004PTC028541
61	BHARGO SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028517
62	MAURYA'S MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028521
63	RESOMATRIX PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74130UP2004PTC028522
64	ASHU HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028526
65	VIJETTA SALES PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028512
66	SALSONS CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992UP2004PTC028514
67	SHREE HARDOI BALAJI FUELS PRIVATE LIMITED	U10101UP2004PTC028504
68	ASHISH VED NAMAN TRADERS PRIVATE LIMITED	U50500UP2004PTC028500

1	2	3
69	SATYAM-SHIVAM-SUNDRAM SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028501
70	VAISHNO SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028498
71	GOLDENWAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028484
72	VIJMAN MARKETTING PRIVATE LIMITED	U51109UP2004PTC028477
73	ANKUIES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028460
74	SHRIRAM TECHNO BEARINGS PRIVATE LIMITED	U27108UP2004PTC028434
75	CAREER PROFESSIONAL TRAINING NETWORK PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028427
76	AMBA MULTI MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028418
77	PRAGYA FILMS PRIVATE LIMITED	U92111UP2004PTC028419
78	MIRROR TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028411
79	PRINCE CASTING PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028400
80	GANGA OXYGEN PRIVATE LIMITED	U23201UP2004PTC028396
81	HAMARA SAMRADH JEEVAN SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028387
82	DOLLAR STEELS PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028384
83	VARSHNEY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028373
84	SUKHBASI LAL MISRI LAL TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17212UP2004PTC028369
85	USHA INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028370
86	SKYLAB COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028346
87	JANKI TOURISM INDIA PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028347
88	SHRI SHARE PANDIT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190UP2004PTC028348
89	DHAMAKA INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028349
90	CONSORTIUM PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028339
91	TRISAM HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028343
92	EYE-SIGHT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92113UP2004PTC028334
93	INFO VEIN SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028330
94	CDS CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028320
95	SICHUAN SILK PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028327
96	J.M.STEEL AND ALLOYS PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028315
97	RAVI PUMPS AND GENERATORS PRIVATE LIMITED	U29119UP2004PTC028310
98	SUN CREDIT SOLUTION PRIVATE LIMITED	U65192UP2004PTC028313
99	KANPUR PUBLICATION HOUSE PRIVATE LIMITED	U22212UP2004PTC028305
100	S M S PROTECTION AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028302
101	RAJESH MASALA PRIVATE LIMITED	U15495UP2004PTC028300
102	NATURAL SALES CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028291

1	2	3
103	SWYAM SIDDHA INVESTSOLUTION PRIVATE LIMITED	U67200UP2004PTC028283
104	CDS MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028275
105	TELESIA CHEM AND FOODS INDIA PRIVATE LIMITED	U51229UP2004PTC028265
106	DREAM WIN MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028256
107	R.S.M.HOSPITAL PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC028254
108	J AND J CITY CLUBS PRIVATE LIMITED	U55201UP2004PTC028246
109	THE INURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028240
110	GENIOUS MARKETING PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028228
111	I-SPY MARKETTING PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028229
112	GHANSHYAM MERCENTILE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028096
113	NORTHERN ACADEMY OF HIGHER EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80301UP2004PTC028224
114	GLOSS-CB LABS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028214
115	INTERGLOBE AVIATION PRIVATE LIMITED	U62100UP2004PTC028212
116	NABI KAREEM BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028207
117	PRABHU DAYAL AND BROS. BIOCHEM PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028203
118	GAURAV AND GAUREESH ASSOCIATES (MARKETING) PRIVATE LIMITED	U19116UP2004PTC028197
119	BHAWANI REALTORS-AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028192
120	MADHUR INDIA DETECTIVES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028184
121	FRIENDS AMBITION TRADING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028182
122	KUDOS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24232UP2003PTC028179
123	FARMER'S DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U72200UP2003PTC028169
124	ORIGIN SOFTECH PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028165
125	B R TYRES PRIVATE LIMITED	U25112UP2003PTC028157
126	MASTERMIND PROTECTION GUARD (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74920UP2006PTC031819
127	ARESH AGRO FOODS PRIVATE LIMITED	U51229UP2003PTC028144
128	MAHADEO PUBLISHERS & STATIONERS PRIVATE LIMITED	U22122UP2003PTC028145
129	EXCEL INFOWARE PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC028131
130	KLT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U18101UP2003PTC028133
131	GOLDEN CHANCE SALES AND MARKETTING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028119
132	INSTA CORE MARKETING PRIVATE LIMITED	U65999UP2003PTC028122
133	NAKUR MARKETING PRIVATE LIMITED	U74959UP2003PTC028114
134	CAPSTONE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028115
135	N.U.BRIGHT SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028110

1	2	3
136	CATALYST ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74110UP2003PTC028111
137	GUPPANI AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	U15499UP2003PTC028113
138	APNA KHUSHHAL BAZAR MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028097
139	DEVVANSI MARKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028098
140	DEBONAIR KIDS INDIA PRIVATE LIMITED	U95000UP2003PTC028099
141	INDIWAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC028087
142	OSHEL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U31300UP2003PTC028083
143	S.G.R.MARKETING PRIVATE LIMITED	U52322UP2003PTC028075

S P KUMAR
Registrar of Companies,
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Kolkata, the 25th June 2014

No.ROC/WB/SM/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 102 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL NO.	CIN	Name of the company
1	2	3
1	U74900WB2010PTC153809	SARAL NETWORK TRADE PRIVATE LIMITED
2	U45400WB2010PTC153885	MAHULBAN DEVELOPER & HOUSING PRIVATE LIMITED
3	U45400WB2010PTC155390	GAJAPATI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
4	U51909WB2010PTC154444	EVERWAY TRADECOM PRIVATE LIMITED
5	U52190WB2010PTC155074	SPIDER NETWORK COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
6	U74900WB2010PTC141040	BRINDA MARBLE & TRADING PRIVATE LIMITED
7	U13203WB2010PTC145206	SOMENATH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
8	U45400WB2010PTC152754	DULAL HOUSING PRIVATE LIMITED
9	U51909WB2010PTC153811	KINGFISHER DEALCOMM PRIVATE LIMITED
10	U51224WB2010PTC152804	PRITI FOOD MARKETING PRIVATE LIMITED
11	U52322WB2010PTC152986	KUSUM SAREE TRADING PRIVATE LIMITED
12	U52590WB2010PTC152990	ALKA TRADECOM PRIVATE LIMITED
13	U01403WB2010PTC153044	GHOSH & ROY'S KRISHI FARM PRIVATE LIMITED
14	U63040WB2010PLC153219	RISING TOURISM LIMITED
15	U55101WB2010PTC153285	J.B. SACH FOOD & RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
16	U51909WB2010PTC153581	MANGALMURTI TRADELINK PRIVATE LIMITED

1	2	3
17	U67190WB2010PLC153628	M.S. GLOBAL MANAGEMENT CAPITAL SERVICES LIMITED
18	U74999WB2010PLC153661	KAWATCH TELE & INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
19	U52190WB2010PTC153928	ALAASKA DEALMARK PRIVATE LIMITED
20	U70109WB2010PLC154923	FORT GREENARIES POWER INFRACON LIMITED
21	U51909WB2010PTC155688	SIYARAM DEALCOM PRIVATE LIMITED
22	U29253WB2010PLC156237	MACMET TAIM WESER ENGINEERING LIMITED
23	U52190WB2010PTC154853	SHEERWOOD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
24	U15312WB2010PTC155628	BABA BHOLANATH RICE MILL PRIVATE LIMITED
25	U22130WB2010PLC141617	MANTRAM BINODAN MEDIA KARYAKRAM LIMITED
26	U31504WB2010PTC152186	SAS ELECTRO MECHANICAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
27	U18100WB2010PTC152221	AKSHRA TEXTILE TRADING PRIVATE LIMITED
28	U51909WB2010PTC153902	SHIVDARSHAN COMMODEAL PRIVATE LIMITED
29	U01403WB2010PLC154789	GREEN VALLEY FARM PROJECTS LIMITED
30	U17121WB2010PTC155796	BONDIA SPINFAB PRIVATE LIMITED
31	U70109WB2010PTC156238	PAWAN MODISH DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT. LTD.
32	U27201WB1965PTC026496	EAST INDIA ENGINEERING PVT LTD
33	U70100WB2009PLC140094	SWARNATORI PROJECT INFRA LIMITED
34	U51909WB2010PTC141333	SAPTRISHI DEALER PRIVATE LIMITED
35	U52390WB2010PTC152159	SBG RETAILS PRIVATE LIMITED
36	U74900WB2010PTC152872	ROMAN DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
37	U51909WB2010PTC153024	REVIEW DEALERS PRIVATE LIMITED
38	U52100WB2010PTC153058	LIFE GURD TRADECOM PRIVATE LIMITED
39	U51909WB2010PTC152786	SHIVKHORI VINCOM PRIVATE LIMITED
40	U74900WB2010PTC153081	JAMUNA STEEL PRIVATE LIMITED
41	U52100WB2010PTC153386	R. T. C. MARKETING PRIVATE LIMITED
42	U25209WB2010PTC153791	CHAURASIA POLYMERS PRIVATE LIMITED
43	U70102WB2010PLC153963	REAL LIFE REALTY (INDIA) LIMITED
44	U01403WB2010PTC154081	BENGAL INVITRO VENTURE PRIVATE LIMITED
45	U70200WB2010PLC154207	INTERET INFRASTRUCTURE LIMITED
46	U85110WB2010PTC155465	SURAHA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
47	U51909WB2010PTC154082	ANNEX INFLUENCE MARKETING PRIVATE LIMITED
48	U74999WB2010PTC153640	JRD VINIMAY PRIVATE LIMITED
49	U74999WB2010PTC153687	ANKUR FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
50	U92140WB2010PTC153780	STUNNING EVENTS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
51	U01403WB2010PTC153975	SAMRIDDHI AGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED

1	2	3
52	U51909WB2010PTC154237	YASHRAJ VINCOM PRIVATE LIMITED
53	U70102WB2010PLC154381	REAL INDIA DEVCON LIMITED
54	U01403WB2010PLC154512	PARASMONI AGROPROJECTS LIMITED
55	U24233WB2010PTC155377	TSR IMPEX PRIVATE LIMITED
56	U01403WB2010PLC155425	BLUEBELL AGRIVISION INDIA LIMITED
57	U51909WB2010PTC155498	REVVER COMDEL PRIVATE LIMITED
58	U70109WB2010PLC155774	SEA STONE DEVELOPERS LIMITED
59	U93000WB2010PTC156036	G F S SECURITAS & ESCORTS PRIVATE LIMITED
60	U85195WB2010PTC156077	SIYARAM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
61	U28910WB2010PTC156186	MODEL PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED
62	U52390WB2010PTC152723	BEST LIFE CARE MARKETING PRIVATE LIMITED
63	U52100WB2010PTC152376	CROSSWAY MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
64	U72900WB2010PTC152548	JSJ INNOVATIVE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
65	U52100WB2010PTC152660	CORUS SALES PRIVATE LIMITED
66	U52322WB2010PTC152989	MEHAK GARMENT TRADING PRIVATE LIMITED
67	U14200WB2010PTC153100	SRI JIN GRANITES & MARBELS PRIVATE LIMITED
68	U52590WB2010PTC153150	RAINBOW DEALMARK PRIVATE LIMITED
69	U45400WB2010PTC153387	MISAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
70	U51505WB2010PTC152798	B P ENERGY RESOURCES PRIVATE LIMITED
71	U52322WB2010PTC152987	AYUSHI SAREE TRADING PRIVATE LIMITED
72	U18202WB2010PTC152994	DIGANTA JUTE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
73	U52390WB2010PTC154520	YARNS IMPEX PRIVATE LIMITED
74	U51909WB2010PTC154742	V-AIM MARKETING PRIVATE LIMITED
75	U51909WB2010PTC156106	ECONOMY AGENCIES PRIVATE LIMITED
76	U24100WB2010PTC156222	NUPHUR HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
77	U13100WB2010PTC156439	FERROTECH ORES & MINERALS PRIVATE LIMITED
78	U52590WB2010PTC152984	KASHIKA SAREE EMPORIUM PRIVATE LIMITED
79	U40102WB2010PTC155626	SIENNA ELECTRICALS (INDIA) PVT.LTD
80	U51909WB2010PTC152082	RAGHUPATI DEALTRADE PRIVATE LIMITED
81	U52100WB2010PTC152449	KALYAN MERCHANTS PRIVATE LIMITED
82	U70109WB2010PTC152569	BASTU REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
83	U74900WB2010PTC152621	PURUSATTAM AGROTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
84	U63090WB2010PTC152688	SEATRANS OVERSEA SERVICES PRIVATE LIMITED
85	U74999WB2010PLC152860	BARDHAMAN JANAKALYAN MULTILEVEL DISTRIBUTION LIMITED.
86	U74999WB2010PTC153337	SUPERDEAL HOUSING ADVISORY PRIVATE LIMITED

1	2	3
87	U51909WB2010PTC153368	RUDRAMALA VINIMAY PRIVATE LIMITED
88	U74999WB2010PTC153485	RAAS E-PAGE MEDIA PRIVATE LIMITED
89	U50102WB2010PTC153536	BLACK DIAMOND COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
90	U70102WB2010PTC153644	LAXMI CONCLAVE PRIVATE LIMITED
91	U51909WB2010PTC153739	AMRITLAXMI AGENCIES PRIVATE LIMITED
92	U51909WB2010PTC153741	MANGALVANI VINIMAY PRIVATE LIMITED
93	U51909WB2010PTC153901	SANYAM MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
94	U51909WB2010PTC154080	FUTURE FRIENDS MARKETING PRIVATE LIMITED
95	U25209WB2010PTC154146	DEY & SARKAR PLASTIC MOULDING AND SUPPLY COMPANY PVT. LTD.
96	U01403WB2010PLC154384	MARS AGROFARM DEVELOPERS LIMITED
97	U52100WB2010PTC154556	ABSOLUTE DEALMARK PRIVATE LIMITED
98	U52390WB2010PTC154557	PERFECTCHOICE TRADING PRIVATE LIMITED
99	U51109WB2010PTC154659	NEBULA TRACOM PRIVATE LIMITED
100	U45400WB2010PLC154681	PEARL VALLEY INFRANIRMAN LIMITED
101	U17291WB2010PTC154725	LOKNATH POWERLOOM PRIVATE LIMITED
102	U74999WB2010PTC155107	RAGHUPATI SUPPLIERS PRIVATE LIMITED

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s MARIA CONSTANZE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 06th June 2014

No. 5120/817---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act.1956, that the name of MARIA CONSTANZE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s CLAFRA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 06th June 2014

No. 2992/820--- Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act.1956, that the name of CLAFRA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s STELLA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 06th June 2014

No. 5034/823---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act.1956, that the name of STELLA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s NEWLAND HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 4937/827----Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that the name of NEWLAND HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s SOUDAMINI FOODS PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 1835/830---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that the name of SOUDAMINI FOODS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s ALCHIMIA AYURVEDIC YOGA HEALTH THERAPIES PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 6048/833---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that the name of ALCHIMIA AYURVEDIC YOGA HEALTH THERAPIES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s ELLISSE HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 6127/836---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of ELLISSE HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s ONE WORLD PROJECT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 4156/839---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that the name of ONE WORLD PROJECT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s BHRAMRI ESTATES PRIVATE LIMITED

Panaji, - 403001, the 6th June 2014

No. 6886/842---Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act. 1956, that the name of BHRAMRI ESTATES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Cuttack-753014, the 24th June 2014

No. ROC/Sec. 560(5)/2014/994--- Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:---

Sl No.	No. of comp	Name of Company
01	15-7356	JPDC PRIVATE LIMITED
02	15-08356	MONALISA BUILDERS PRIVATE LIMITED
03	15-8763	SETRICS QUALISOFT PRIVATE LIMITED
04	15-11808	UTKAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
05	15-12350	UNIVERSAL UNITED INDUSTRIES AND TRADE CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
06	15-12518	AURO MINING & ENVIRONMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
07	15-14051	PSD CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
08	15-14054	B K PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
09	15-14055	GSS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
10	15-14056	INTELLO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	15-14057	MARKED INC SERVICES PRIVATE LIMITED
12	15-14059	MAXFIN INFRA INDIA LIMITED
13	15-14060	ADITYA FUTURE SECURE PRIVATE LIMITED
14	15-14061	PADMA RESORTS PRIVATE LIMITED
15	15-14064	SAI RAM REALCON PRIVATE LIMITED
16	15-14065	JJ RESOURCE MANAGEMENT SOLUTION PRIVATE LIMITED
17	15-14066	SBZ PROPERTIES PRIVATE LIMITED
18	15-14070	FARNAS HYDROPOWER PRIVATE LIMITED
19	15-14074	JAI LAXMI BUILDERS PRIVATE LIMITED
20	15-14075	SWARNABHUMI FOODS INDIA LIMITED
21	15-14076	U-LIFE MULTITRADE PRIVATE LIMITED
22	15-14079	GREEN LIFE INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
23	15-14083	JAGRUTI SULOCHANA MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED

24	15-14084	SAVITRI SINGH MARKETING PRIVATE LIMITED
25	15-14086	ALL ROUND RESIDENTIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
26	15-14087	LITTLE GARDEN REALCON PRIVATE LIMITED
27	15-14088	SURYA PRATAP INFRASTRUCTURE LIMITED
28	15-14094	MASS VENTURES LIMITED
29	15-14096	SURYA NIRMAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
30	15-14099	ADITYA INFRADESIGNERS PRIVATE LIMITED
31	15-15125	VISION INDIA MULTITECH INFRA LIMITED
32	15-05216	MAITRI BUILDERS PRIVATE LIMITED
33	15-12572	SEA SHELL HOTELS & MULTIPLEX PRIVATE LIMITED

C.K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 26th June, 2014

NO. ROC/560/(5) FTE—NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID THE COMPANIES STAND DISSOLVED:----

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U24239KA2007PTC044631	BEIKE CLINCELL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	U40101KA2003PTC032909	AKASHA GANGA ENERGY PRIVATE LIMITED
3	U85110KA1995PLC027861	BLOOMING MEADOWS LIMITED
4	U80301KA2001PLC029271	PINKTROUT INFORMATICS INDIA LIMITED
5	U01810KA2005PTC036632	PAY-OTA SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
6	U72200KA2009PTC050332	MOIDEAS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	U28900KA2007PTC042452	KRAFT WERK INDIA PRIVATE LIMITED
8	U18109KA2010PTC054698	BITSINDIANA APPARELS PRIVATE LIMITED
9	U74999KA2011PTC056565	NATYAKALA ARTS PRIVATE LIMITED
10	U72200KA2012PTC064266	SYNCHROSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
11	U72900KA2011PTC061687	CLOUD NET SERVICES PRIVATE LIMITED
12	U72909KA2009PTC051807	AGINO NETWORKS PRIVATE LIMITED

13	U40102KA2010PTC053803	ZERO CARBON ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED
14	U50404KA2011PTC056735	QUEST AUTOMOBILES INDIA PRIVATE LIMITED
15	U45202KA2008SGC045742	AKKSHAY PROJECTS PRIVATE LIMITED
16	U74999KA2007PTC043178	TALETE GEO SPATIAL PRIVATE LIMITED
17	U29305KA2011PTC057925	TAMARIND TECHSYS PRIVATE LIMITED
18	U74900KA2010PTC055434	RATHNA MULTISOURCE SERVICE PRIVATE LIMITED
19	U17124KA2008PTC048546	PARI EMBROIDERY PRIVATE LIMITED
20	U10200KA2011SGC057921	KARNATAKA EMTA COLLIERIES LIMITED
21	U74910KA2000PTC027578	EPROFESSIONAL WORLD WIDE PRIVATE LIMITED
22	U51496KA2005PTC037842	AXION IMPEX PRIVATE LIMITED
23	U74140KA2008PTC047703	DELTA2SIGMA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
24	U51101KA2012PTC064705	CURION PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
25	U85100KA2012PTC063235	HEALTH ANALYST INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
26	U52300KA2011PTC059995	3CLOSETS E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
27	U72900KA2003PTC032661	TALKING BUDDHA LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	U40108KA2010PTC055945	RVA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
29	U72900KA2011PTC061437	IWIZABILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U15411KA1994PTC015698	NOUVELLE FOODS PRIVATE LIMITED
31	U72200KA2007PTC042308	JUBE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
32	U74120KA2010PTC055210	LABORATOIRES VBN INDUSTRIAL & RESEARCH PROFESSIONNELS PRIVATE LIMITED
33	U25200KA2011PTC058606	LAXMI POLYSACKS INDIA PRIVATE LIMITED

A. SEHAR PONRAJ
Deputy Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the Following Companies

Bangalore, the 25th June 2014

NO. ROC/560/(5) FTE- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB- SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:----

Sl. No.	CIN	Company Name
01	U74999KA2011PTC057810	INDE TALENT SCOUTS PRIVATE LIMITED
02	U27106KA1977PTC003162	EXOTHERM PRIVATE LIMITED

03	U72200KA2011PTC056749	COMSTOR DISTRIBUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED
04	U72900KA2012PTC063904	BLUEDREAMS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
05	U55101KA2012PTC065411	TINDYS FOODS PRIVATE LIMITED
06	U72900KA2012PTC067415	EDUCAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
07	U70102KA1995PTC017951	OAKWOOD REALTORS PRIVATE LIMITED
08	U72200KA2011PTC058466	VIPRATHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
09	U72200KA2013PTC069738	INTENTREE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	U24100KA2011PTC060452	NEON NUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED
11	U17121KA2007PTC043372	SHRIRANGA COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
12	U02212KA2005PTC037513	INTELLECT PUBLISHING HOUSE PRIVATE LIMITED

SUSHIL KUMAR
Assistant Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in